



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19, 1994 (फाल्गुन 28, 1915)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19, 1994 (PHALGUNA 28, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1994

सं० 186, दिनांक 2 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

ठोसावस्था भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली के डा० टी० श्री-
निवासन वैज्ञानिक "सी" (तदर्थ) को दिनांक 26-02-1993
(पूर्वाह्न) से उसी प्रयोगशाला में अस्थाई वैज्ञानिक "सी" के
रूप में। वह एक वर्ष की परखावधि पर रहेगा।

गैस टर्बाइन विकास स्थापना बेंगलोर के डा० वी० एस०
बट्टाचार वैज्ञानिक "सी" (तदर्थ) को दिनांक 27-05-93
(पूर्वाह्न) से उसी स्थापना में एक वर्ष की परखावधि पर अस्थाई
वैज्ञानिक "सी" के रूप में।

1—504 GI/93

(501)

रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर में श्रीमती मंजलि भाटिया को
दिनांक 26-07-1990 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की परखावधि
पर अस्थाई वैज्ञानिक "सी" के रूप में।

डॉ० जे० ऐन्ड्र्यू
सहायक निदेशक (कार्मिक)

सं० 187, दिनांक 20 जनवरी, 1994—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी
तारीख से तथा स्थापना में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थाई
वैज्ञानिक 'बी' के पद पर :—

संजय सक्सेना आर० टी० ओ० नासिक—24 सितम्बर,
1993 (पूर्वा०)।

वी० पी० नारीश कुमार भार० टी० ओ० नासिक—30
सितम्बर, 1993 (पूर्वा०) ।

भारत सिंह मान्डलोई, भार० टी० ओ० नासिक—17
दिसम्बर 1993 (पूर्वा०) ।

विश्व चन्द्रिका कौशिक, बी० पी० एण्ड भार० एम० भार०
एण्ड बी० हैडक्वाटरस, नई दिल्ली—12 सितम्बर, 1991
(पूर्वा०) ।

मिस धनीला पुरी, डारेक्टोरेट आफ एम० पी० बी० भार०
एण्ड बी० हैडक्वाटरस नई दिल्ली—10 अगस्त, 1992—
(पूर्वा०) ।

मिस कविता बनेल बी० एस० सी०, दिल्ली—18 सितम्बर,
1992 (पूर्वा०) ।

शिव लक्ष्मी बांडूजा, डारेक्टोरेट आफ आरमायेंट भार० एण्ड
बी० हैडक्वाटरस नई दिल्ली—18 नवम्बर 1993 (पूर्वा०) ।

भार० के० शर्मा
सहायक निदेशक (कार्मिक)

(सैन्य शाखा)

सं० 188, दिनांक 16 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति जी,
निम्नलिखित श्री सर्व्व निम्नलिखित करते हैं :—

निवृत्त सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित को 12 जून, 1993 से सेना अनुदेश 4/एस/
67 के नियमों के अन्तर्गत 2/ले० के पद पर स्थायी आयोग
अनुदेशों किमी जाता है। उन्हें 12 जून, 1991 से सेना अनुदेश
4/एस/67 के नियमों के अन्तर्गत दो वर्ष की पूर्ण विनांकित ज्येष्ठता
वेतन तथा उन्नति के लिये दी जाती है और तदनुसार 12 जून,
1993 से ले० के पद पर उन्नत किया जाता है :—

रोहित सिंह भसीन (आई० सी०-52276 एल) इंजीनियर्स
12 जून 1993 ।

राजेश कुमार (आई० सी०-52278 डब्ल्यू), इंजीनियर्स
12 जून 1993 ।

अमन कश्यप (आई० सी०-52279 आई०), इंजीनियर्स
12 जून 1993 ।

नवीन कुमार (आई० सी०-52280 एम), ई० एम० ई०
12 जून 1993 ।

विपिन त्रिवेदी (आई० सी०-52281 डब्ल्यू), इंजीनियर्स
12 जून 1993 ।

अजय नरामणबादव (आई० सी०-52282 आई०), इंजीनियर्स
12 जून 1993 ।

सुरेश सिंह जगन्नाथ (आई० सी०-52283 एफ), ई०
एम० ई०, 12 जून 1993 ।

अरविन्द कुमार मुत्ता (आई० सी०-52284 के), ई०
एम० ई०, 12 जून 1993 ।

शिवेश कुमार (आई० सी०-52285 एम), ई० एम० ई०
12 जून 1993 ।

मोनीश दास (आई० सी०-52286 पी), इंजीनियर्स
12 जून 1993 ।

सुमित चंद्राज (आई० सी०-52287 एक्स), सिगनल—
12 जून, 1993 ।

पवन पांडे (आई० सी०-52288 ए), इंजीनियर्स—
12 जून 1993 ।

पटवर्धन कृष्ण नयेज (आई० सी०-52289 एफ), इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

वीरेश सिंह जैजी (आई० सी०-52290 एक्स), इंजीनियर्स,
—12 जून, 1993 ।

अोजन जैविकर रिबेलो (आई० सी०-52291 ए) सिगनल
—12 जून, 1993 ।

संवीप कुमार अरोड़ा (आई० सी०-52292 एफ), इंजी-
नियर्स—12 जून 1993 ।

गुरविभरत सिंह (आई० सी०-52293 एल), इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

भट्ट राजेश रामानन्द (आई० सी०-52295 डब्ल्यू)
इंजीनियर्स—12 जून, 1993 ।

स्वाधी एस० ज्योतिलिंगम (आई० सी०-52296 आई०),
ई० एम० ई०—12 जून, 1993 ।

मुजीब कुमार मुहूर्जी (आई० सी०-52297 एफ) इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

चेटी संतोष बाणाकृष्णा (आई० सी०-52300 डब्ल्यू),
ई० एम० ई०—12 जून, 1993 ।

अतिश सिंह (आई० सी०-52301 आई०), इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

अश्विनेश पांडे सिंह (आई० सी०-52302 एफ), ई० एम०
ई०—12 जून, 1993 ।

ठाकर समीर कानुभाई (आई० सी०-52303 के), ई०
एम० ई०—12 जून, 1993 ।

परमानन्द कुमार (आई० सी०-52304 एम), इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

के० रविशंकर (आई० सी०-52306 एक्स), इंजीनियर्स
—12 जून 1993 ।

प्रेम कुमार जी० (आई० सी०-52307 एक्स), इंजीनियर्स
—12 जून 1993 ।

राधाकृष्णा शिवू-4 (आई० सी०-52308 एस) सिगनल—
12 जून, 1993 ।

प्रकाश मूर्ति शालु० (आई० सी०-52309 एल), सिगनल
—12 जून, 1993 ।

पद्मानाभन नगेस (आई० सी०-52310 ए), ई० एम०
ई०—12 जून, 1993 ।

खोरमबाम जैतिन सिंह (आई० सी०-52312 एल), इंजीनियर्स—12 जून, 1993 ।

नवजोत सिंह सिधू (आई० सी०-52313 एन), ई०
एस० ई०—12 जून, 1993 ।

मुकुल मंजू (आई० सी०-52314 डब्ल्यू), इंजीनियर्स—
12 जून, 1993 ।

बधिराजू सुनील कुमार (आई० सी०-52315 वार्ड)
ई० एम० ई०—12 जून, 1993 ।

विश्वजीत चौबे (आई० सी०-52316 एफ) इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

विषवामोहन कुमार (आई० सी०-52317 के), ई० एम०
ई०—12 जून, 1993 ।

प्रसीमीउलाह खान जानबाज (आई० सी०-52318 एम),
इंजीनियर्स—12 जून, 1993 ।

प्रनिल कुमार मौर्या (आई० सी०-52319 पी), इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

रवि कान्त शर्मा (आई० सी०-52320 के), इंजीनियर्स
12 जून, 1993 ।

रोमाले नीतिन कुमार पंडुरंग (आई० सी०-52321 एम),
ई० एम० ई०—12 जून, 1993 ।

अच्युत सिंघल (आई० सी०-52322 पी), इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

रवि चुग (आई० सी०-52324 ए), इंजीनियर्स—12
जून, 1993 ।

सी० सुरेश (आई० सी०-52325 एच), ई० एम० ई०—
12 जून, 1993 ।

संदीप कुमार सिंघल (आई० सी०-52326 एल), इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

अमदीश चक्रन प्रार० (आई० सी०-52327 एन), ई०
एम० ई०—12 जून, 1993 ।

प्रदीप कुमार सी० (आई० सी०-52328 डब्ल्यू)—
ई० एम० ई०—12 जून, 1993 ।

अजय मधुर (आई० सी०-52329 वार्ड), ई० एम० ई०
—12 जून, 1993 ।

मनू चौधरी (आई० सी०-52330 एन), इंजीनियर्स—
12 जून, 1993 ।

जगदीश प्रभु के० पी० (आई० सी०-52332 वार्ड), ई०
एम० ई०—12 जून, 1993 ।

संजीव राय तलवार (आई० सी०-52333 एफ), इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

संजीव श्रीवास्तवा (आई० सी०-52334 के), ई० एम०
ई०—12 जून, 1993 ।

प्रभाकर कुमार सिंह (आई० सी०-52335 एन), सिगनल
—12 जून, 1993 ।

रणजीव सिंह सैनी (आई० सी०-52336 पी), सिगनल
—12 जून, 1993 ।

नितीन विजय बुधै (आई० सी०-52337 एफ), ई० एम०
ई०—12 जून, 1993 ।

एन० मंगनेश (आई० सी०-52338 ए), इंजीनियर्स—
12 जून, 1993 ।

मुरेश कुमार सिग्हा (आई० सी०-52339 एच), इंजी-
नियर्स—12 जून, 1993 ।

मनोरंजन दास (आई० सी०-52340 एक्स), इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

प्रहलाद हुनरगी (आई० सी०-52341 ए), इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

हरीनाथ के० (आई० सी०-52342 एन), इंजीनियर्स—
12 जून, 1993 ।

एलक्स सैरिक (आई० सी०-52343 एल), इंजीनियर्स
—12 जून, 1993 ।

2. निम्नलिखित को 12 जून, 1993 से सेना अनुदेश
105/61 के नियमों के अन्तर्गत 2/से० के पद पर स्थायी अस्थायी
अनुदान किया जाता है :—

प्रबनीश कुमार त्यागी (आई० सी०-52276 एच),
ए० ई० सी०—12 जून 1993 ।

नीमाजीत विश्वास (आई० सी०-52299 एन)
ए० ई० सी०—12 जून 1993 ।

विकास मोहन (आई० सी०-52323 एक्स), ए०
ई० सी०—12 जून 1993 ।

निवृत्त सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परबाधीन)

निम्नलिखित को सेना अनुदेश 4/एस०/67 के नियमों
के अन्तर्गत उनकी भारतीय सैन्य प्रणाली में अयोग्य
प्रमाण तक के लिए 2/से० के पद पर उनके अल्पकालीन

तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :—

परमानन्द कुमार (एस० एस०-35418 एफ), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

संजीव राय तलवार (एस० एस०-35419 के), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

भट्ट राजेश रामाचन्द्रा (एस० एस०-35420 वाई), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

मनु शोधरी (एस० एस०-35421 एफ), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

सुदेश कुमार सिन्हा (एस० एस०-35422 के), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

सुजीत कुमार मुखर्जी (एस० एस०-35423 एम), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

गुरसिमरत सिंह (एस० एस०-35425 एक्स), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

विश्वजीत चौबे (एस० एस०-35426 ए), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

अनिल कुमार मौर्य (एस० एस०-35428 एल), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

हरीनाथ के० (एस० एस०-35429 एन), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

मुल्लुकुतला रवि कुमार (एस० एस०-35430 एच), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

मुकुल मंकू (एस० एस०-35431 एल), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

प्रहलाद कुलकर्णी (एस० एस०-35432 एन), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

पटवर्धन हलीप गणेश (एस० एस०-35433 डब्ल्यू), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

एलक्स सैरक (एस० एस०-35435 एफ), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

अश्वयुक्त सिधल (एस० एस०-35436 के), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

मनोरंजन दास (एस० एस०-35437 एम), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

पी० इंसटाईन सागर लाल (एस० एस०-35439 एक्स), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

रवि कान्त शर्मा (एस० एस०-35440 एम), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

अमन कंसल (एस० एस०-35441 पी), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

संदीप कुमार सिधल (एस० एस०-35442 एक्स), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

भरत उपेश कुमार मनहरघन (एस० एस०-35443 ए), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

विपिन तिवेदी (एस० एस०-35444 एच), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

पवन पांडे (एस० एस०-35445 एल), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

अश्लीमजल्ला खान जांबाज (एस० एस०-35446 एन), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

के० रविशंकर (एस० एस०-35447 डब्ल्यू), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

संदीप कुमार अरोड़ा (एस० एस०-35448 वाई), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

राजेश कुमार (एस० एस०-35450 डब्ल्यू), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

जगदीश प्रभु के० पी० (एस० एस०-35452 एफ), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

स्वाधी एस० ज्योतिर्लिंगम (एस० एस०-35453 के), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

अरविन्द कुमार गुप्ता (एस० एस०-35454 एम), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

सुरिन्दर सिंह जगलान (एस० एस०-35456 एक्स), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

वधिराजू सुनील कुमार (एस० एस०-35459 एल), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

नवजोत सिंह सिद्धू (एस० एस०-35460 ए०), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

रोमाले नितिन कुमार पांडुरंग (एस० एस०-35461 एच), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

अबनिवर पाल सिंह (एस० एस०-35462 एल), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

जगदीश चन्द्रन आर० (एस० एस०-35463 एन), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1993।

सुजीत करमाकर (एस० एस०-35464 डब्ल्यू), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

ठाकर सामीर कानूभाई (एस० एस०-35465 वाई), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

एन० मंगलेश (एस० एस०-35466 एफ), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

रोमहन्द्र सिंह भसीन (एस० एस०-35467 के), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

सी० सुरेश (एस० एस०-35468 एम), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

शिवेन्द्र कुमार (एस० एम०-35469 पी), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

प्रदीप कुमार सी० (एस० एस०-35470 के), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

पंकज झा (एस० एस०-35471 एम), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

पद्मानाभन गणेश (एस० एस०-35473 एक्स), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

अजय नारायण यादव (एस० एस०-35474 ए), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

लोरेमबाम जीतन सिंह (एस० एम०-35475 एच), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

नवीन कुमार (एस० एस०-35477 एन), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

प्रभाकर कुमार सिंह (एस० एस०-35479 बाई), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

प्रेम कुमार डी० (एस० एस०-35483 एफ), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

रणजीव सिंह सैनी (एस० एस०-35484 के), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

औऊन जैवियर रबैलो (एस० एस०-35486 पी), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

सुमित शैरांग (एस० एस०-35487 एक्स), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

प्रकाश मूर्ति आर० (एस० एम०-35488 ए), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

राधाकृष्ण शिबू 4 (एस० एस०-35490 एक्स), सिगनल—23 जुलाई, 1992।

विरेन्द्र सिंह जैजी (एस० एस०-35491 ए), इंजीनियर्स—23 जुलाई, 1992।

चैटी संदीप बालाकृष्णा (एस० एस०-35492 एच), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

अजय माधुर (एस० एस०-35495 डब्ल्यू), ई० एम० ई०—23 जुलाई, 1992।

विशवा मोहन कुमार (एस० एस०-35496 बाई), ई० एम० ई०—25 जुलाई, 1992।

विनिन विजय बुजे (एस० एम०-35497 एफ), ई० एम० ई०—30 सितम्बर, 1992।

मोनीश दास (एस० एस०-35498 के), इंजीनियर्स—16 अक्टूबर, 1992।

अल्प सेवा आयोग
2/लै० के पद पर

निम्नलिखित को तिथि वर्ष के लिए विशेष सेवा अनुदेश 11/एस/64 के अन्तर्गत 6 मार्च 1993 से अल्प सेवा आयोग (परखाधीन छः महीने तक) में 2/लै० के पद पर परखाधीन अवधि समाप्त होने पर उसी तिथि से पुष्टि की जाती है :—

सुदीप चौहान (एस० एम०-35500 डब्ल्यू), इंजीनियर्स, ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लै० विजय कुमार (एस० एस०-35501 बाई), इन्फैन्ट्री, सुनील वत्त उपाध्याय (एस० एस०-35531 डब्ल्यू), आर्टी०, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लै० कमनैना करनन कुमार (एस० एम०-35530 एन), आर्टी०, राजेश यादव (एस० एम०-35541 ए), ए० एस० सी०, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लै० हरेन्द्रा सिंह चौहान (एस० एस०-35540 एन), इन्फैन्ट्री, अनूप भट्ट (एस० एस०-35582 के), ए० ओ० सी०, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लै० राकेश शर्मा (एस० एस०-35581 एफ), इन्जीनियर्स, अनुपम जोशी (एस० एम०-35589 एन), इन्जीनियर्स, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लै० हराशंकर सिंह (एस० एम०-35588 एन), आर्टी०, रजनीश शर्मा (एस० एस०-35602 एम), ए० सी०, मनजीत सिंह (एस० एस०-35603 पी), ए० एम० सी० और मैनन विनित मुकुन्द (एस० एस०-35604 एक्स), इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता 2/लै० सुवार प्रवीण शर्मा (एस० एस०-35601 के), इन्फैन्ट्री के तौर पर तिथि वर्ष 25 सितम्बर, 1993 के राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं।

ए० के० बकशी,
लै० कनल, ए० एम० एस० 8वीं

नं० 189, दिनांक 4 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति, अल्प सेवा अनुदेश 3/विशेष/70 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

निधमित सेवा
स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 29 अगस्त, 1986 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर पक्षधरि के लिए दिनांक 27 अप्रैल, 1982 लेकिन वेतन वृद्धि के लिए 29 अगस्त, 1981 से वरिष्ठता के साथ

सैफिण्ड सैफिटमेंट के रैंक में 29 अगस्त, 1986 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा उनकी परस्पर बरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उनकी बरिष्ठता के अनुसार उनकी दिनांक 29 अगस्त, 1986 से सैफिटमेंट के रैंक में दिनांक 27 अप्रैल, 1984 से बरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है :—

जबतार सिंह (एस० एस०—30818 अब आई० सां०—37886 ए), सिग्नलस ।

मंजीत सिंह (एच० एम०—30842 अब आई० सां०—37894 के), ए० सी० ।

शिरीकणि सिंह कुशावाहा (एस० एस०—30866 अब आई० सी०—37910 एल), इन्फैंट्री ।

वी० के० आनन्द,
कॉर्नल एम० एस०/आर० व आर०

नौसेना शाखा

सं० 190, दिनांक 8 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० ओ० एफ०/1401/एन० एच० क्यू०/2110 (II)/यू० एस०/डी० (एन०—II) दिनांक 3 नवम्बर, 1992 के अन्तर्गत शिक्षा शाखा में निम्नलिखित नाम के सामने बर्नाई गई तारीख से नियुक्ति करते हैं :—

भारतीय नौसेना
(स्थायी कमीशन)

शिक्षा शाखा

नाथ, कमीशन की फिस्म, मिजी नम्बर एवं कमीशन की तारीख नोयल प्रमोद, पी० सी०, (70344 वाई)—12 अगस्त, 1991 ।

एस० के० वेवरस,
कप्तान, डी० डी० एम० पी० आर० (आर एण्ड आर)

सटरलक

सं० 191, दिनांक 8 फरवरी, 1994—भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां/सेवा निवृत्तियां करते हैं :—

नियुक्तियां :—

श्री डी० वेणु माधवन (0352 एक्स)—9 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री जी० जॉन बिक्टर (0353 सी)—10 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री फ्रांसिस पाल (0354 डी)—10 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री मनोरंजन श्रीवास्तव (0355 डी)—10 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री सत्यरंजन दास (0356 जे)—11 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री हेमन्त कुमार ग्राहजा (0357 एल)—11 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री दीपक राज शर्मा (0358 एम)—11 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री किन्ने भूटिया (0359 पी)—11 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री सिद्धार्थ सुधीर सूद (0360 क्यू)—11 जुलाई, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में नियुक्त । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

पदोन्नतियां :—

उ० अघि० के० सिंह (00741 टी)—17 सितम्बर, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में पदोन्नति और उन्हें वैयक्तिक नं० 0361 एस, आबंटित किया गया । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

उ० अघि० के० सी० शर्मा (00579 एस)—17 सितम्बर, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में पदोन्नत और उन्हें वैयक्तिक नं० 0362 बी, आबंटित किया गया । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

प्र० अघि० आत्मा सिंह (00971 एम)—17 सितम्बर, 1993 से सहायक कमांडेंट (जी० डी०) के रैंक में पदोन्नत और उन्हें वैयक्तिक नं० 0363 एक्स, आबंटित किया गया । वे दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

बाबू केरियन,
डेलक अफसर

वायु सेना मुख्यालय

सं० 192, दिनांक 10 जनवरी, 1994—सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री रेवती प्रसाद, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा 1968 की धारा 10(2) के अधीन सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर 9 दिसम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से 26 अप्रैल, 1994 (अपराह्न) तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी नियुक्ति बिल्कुल काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई है और प्रशासनिक कारणों से, बिना नोटिस दिए, अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

पी० एन० मौलिक,
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वायु शाखा

सं० 193, दिनांक 7 फरवरी, 1993—राष्ट्रपति, वा०से० अनु० 20/76, 28/76 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा वा०से० अनु० (शुद्धिपत्र) 7/78 तथा 13/81 के अन्तर्गत निम्नलिखित को पायलट अफसर की रैंक में स्थायी कमीशन (एक वर्ष के लिए परन्तु) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
प्रशासनिक शाखा

(भूतपूर्व वायुसैनिकों को पायलट अफसर के रैंक में)
नरेश चन्द्र शर्मा (22206)—19 दिसम्बर, 1992 से।
प्रभाकर शोला (22207)—19 दिसम्बर, 1992 से।
अशोक कुमार शर्मा (22219)—19 दिसम्बर, 1992 से।

भरत कुमार (22220)—19 दिसम्बर, 1992 से।

पारिभारीकी शाखा

(भूतपूर्व वायुसैनिकों को पायलट अफसर के रैंक में)
एस० बेंकटामुन्ननीयन (22230)—19 दिसम्बर, 1992 से।

लेखा शाखा

(भूतपूर्व वायुसैनिकों को पायलट अफसर के रैंक में)
गोपाकुमार अय्यप्पन नायर (22251)—19 दिसम्बर 1992 से।

मंदावी सिघाई (22254)—19 दिसम्बर 1992 से।
राष्ट्रपति, निम्नलिखित की वायु सेना अनु० 5/81, 11/81 तथा 5/82, संशोधित वा०से० अनु० 48/75 के पैरा 9 के उपबन्धों के अन्तर्गत फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

(भूतपूर्व वायुसैनिकों को फ्लाईंग अफसर की रैंक में)
(वेतन के लिए दो साल की पूर्वलिखित के साथ)
प्रशासनिक शाखा

पियूष कान्ती दत्ता (22300)—6 फरवरी, 1993 से।

बीज लाल कालीदा (22301)—6 फरवरी, 1993 से।

कार्थीक चन्द्र बिश्वास (22302)—6 फरवरी, 1993 से।

अशोक कुमार शर्मा (22303)—6 फरवरी, 1993 से।

विनोद कुमार शर्मा (22304)—6 फरवरी, 1993 से।

वासुदेव (22313)—6 फरवरी, 1993 से।

रोशन लाल शर्मा (22314)—6 फरवरी, 1993 से।

लक्ष्मण दत्त पाण्डेय (22315)—6 फरवरी, 1993 से।

राम श्रीकृष्ण सिंह (22316)—6 फरवरी, 1993 से।

मुनताज अली (22319)—6 फरवरी, 1993 से।

लेखा शाखा

सिवानागा मुन्दरम कार्थीकेयन सेल्मन (22320)—6 फरवरी, 1993 से।

मौसम विज्ञान शाखा

रविन्द्र शाही (22329)—6 फरवरी, 1993 से।

एस० बाबू,
स्काइन लीडर, सहा० निवे० एक 3(बी)क

सं० 194, दिनांक 28 जनवरी, 1994—राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या आर० (4)।/89/डी० (एयर III) तारीख 13 जुलाई, 1990 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को 11 दिसम्बर, 1993 से अनन्त अल्पकालिक कमीशन प्रदान करते हैं। यह अल्पकालिक अनन्त अल्पकालिक कमीशन प्राप्त करने की तारीख से उद्योग वेतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

(भूतपूर्व फ्लाईट कैडेटों को पायलट अफसर के रैंक में)

ए० रामन बाबू (22664)—11 दिसम्बर, 1993 से।

भंडर सिंह दत्तल (22665)—11 दिसम्बर, 1993 से।

पंकज कुमार श्रीवास्तव (22666)—11 दिसम्बर, 1993 से।

मदित विहीत (22667)—11 दिसम्बर, 1993 से।

एस० लक्ष्मण (22668)--11 सितम्बर, 1993 से।
 बैएन्ती टोनी (22669)--11 सितम्बर, 1993 से।
 रजनीश गांधी (22670)--11 सितम्बर, 1993 से।
 जसप्रित सिंह बिन्दा (22671)--11 सितम्बर, 1993 से।
 राजेश शर्मा (22672)--11 सितम्बर, 1993 से।
 गोपीनाथन अश्वनी कुमार (22673)--11 सितम्बर, 1993 से।
 बरजीवर पाल सिंह (22674)--11 सितम्बर, 1993 से।
 अन्थोनी जोसेफ पिन्दो (22675)--11 सितम्बर, 1993 से।

राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या आर० (4)I/89/डी० (एयर III) दिनांक 13 जुलाई, 1990 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को 14 अगस्त, 1992 से अनन्तिल अल्पकालिक कमीशन प्रदान करते हैं। यह अफसर अनन्तिल अल्पकालिक कमीशन प्राप्त करने की तारीख से उद्धान वेतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायुसेना

उद्धान पायलट शाखा

(भूतपूर्व वायुसैनिकों को पायलट अफसर के रैंक में)

सुभिल कुमार दास (22002)--14 अगस्त, 1992 से।

एच० बी० शर्मा,
 स्काइम लीडर, सहा० निवे० का अफ० 3(डी)

सं० 185, दिनांक 7 फरवरी, 1994--राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 4(4)/90/डी० (एयर III) तारीख 18 जुलाई, 1991 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को अनन्तिल अल्पकालिक कमीशन छोड़ने की अनुमति देते हैं तथा 10 जून, 1992 से प्रशासनिक (विमान धातायात नियंत्रक) शाखा में अल्पकालिक कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

प्रशासनिक (विमान धातायात नियंत्रक) शाखा

सीवाबासन बद्रूबबूक्कदन (21921)--10 जून, 1992 से।
 कौशिक बण्डोपाध्याय (21922)--10 जून, 1992 से।
 दिनेश कुमार सिंह (21927)--10 जून, 1992 से।
 संजीव कुमार सिंह (21930)--10 जून, 1992 से।
 बबीन्दर सिंह मलिक (21931)--10 जून, 1992 से।

प्रवीर नित्यरंजन दास (21936)--10 जून, 1992 से।
 रामेश्या सखानन (21937)--10 जून, 1992 से।
 संतोष कुमार ध्यानी (21938)--10 जून, 1992 से।
 राजीव कुमार झा (21939)--10 जून, 1992 से।
 गिरीश राव (21940)--10 जून, 1992 से।
 उदानन्द राव श्रीनाथ (21942)--10 जून, 1992 से।
 र्ही० जार्ज कोशी (21943)--10 जून, 1992 से।
 विनोद कुमार पाठक (21946)--10 जून, 1992 से।
 मुथुवेंकटेशन नागाराजन (21948)--10 जून, 1992 से।
 आकाशदिप माथुर (21949)--10 जून, 1992 से।
 मनोज कुमार गोगोई (21950)--10 जून, 1992 से।
 कोण्डापल्ली सार्ईसुमन (21951)--10 जून, 1992 से।
 कोटीपुराय वेनूगोपाल (21952)--10 जून, 1992 से।
 अजय कुमार पाण्डेय (21953)--10 जून, 1992 से।
 अनन्त प्रभाकर वाडी (21954)--10 जून, 1992 से।
 मनोज मेहता (21957)--10 जून, 1992 से।
 हरेन्द्र सिंह (21958)--10 जून, 1992 से।
 अतंथ गड्डेपल्ली (21959)--10 जून, 1992 से।
 इन्द्रजीत सिंह हस्तपाल (21961)--10 जून, 1992 से।
 उषथ जगन्नाथ कुलकर्णी (21964)--10 जून, 1992 से।
 अश्वनी कुमार पुन्धीर (21966)--10 जून, 1992 से।
 वेंकट लक्ष्मण कुमार अनुकुला (21967)--10 जून, 1992 से।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 4(4)/90/डी० (एयर III) तारीख 18 जुलाई, 1991 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को अनन्तिल अल्पकालिक सेवा कमीशन छोड़ने की अनुमति देते हैं तथा 10 जून, 1992 से प्रशासनिक (फाईटर नियंत्रक) शाखा में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

प्रशासनिक (फाथटर नियंत्रक) शाखा

अविनाश इन्दोरिया (21923)--10 जून, 1992 से।
 बर्खा पुष्पराज छीब्बर (21924)--10 जून, 1992 से।
 अर्जुनन समीजप्पन (21925)--10 जून, 1992 से।
 सजय कुमार राठौर (21926)--10 जून, 1992 से।
 पार्शी आचार्य (21928)--10 जून, 1992 से।

परमजंत सिंह (21929)—10 जून, 1992 से।
 किरन कृष्णन नाथर (21932)—10 जून, 1992 से।
 संजय कुमार (21933)—10 जून, 1992 से।
 सतिन्दर सिंह (21934)—10 जून, 1992 से।
 राजेश पी० एन० (21935)—10 जून, 1992 से।
 राजीव दास (21940)—10 जून, 1992 से।
 शिव प्रसाद सती (21944)—10 जून, 1992 से।
 विश्व जीत मिश्रा (21945)—10 जून, 1992 से।
 आनन्द जनार्दन सामण्डे (21947)—10 जून, 1992 से।
 रमबीर बैनर्जी (21955)—10 जून, 1992 से।
 ए० इवेनेसर (21956)—10 जून, 1992 से।
 पराग रमेश चिटनवीम (21960)—10 जून, 1992 से।
 फैसल फायस मेथेरबाधू पनाब्रोम (21963)—10 जून, 1992 से।
 बीजू मीथू कुरीकट्ट (21965)—10 जून, 1992 से।

एस० बासू,
 स्कॉटलैंड लिडर, सहा० निवे० का अफ० 3(डी)

सं० 196, दिनांक 8 फरवरी, 1994—निम्नलिखित को उसके थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कर्नल-इन-चीफ का रैंक प्रदान किया जाता है :—

अनरल बी० सी० जोशी, पी० बी० एम० एम०, ए० बी० एस० एम०, ए० डी० सी०, थल सेना अध्यक्ष, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली—1 जुलाई, 1993।

निम्नलिखित को उनके नौ सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कैप्टन-इन-चीफ का रैंक प्रदान किया जाता है :—

एडमिरल वी० एस० शेखावत पी० वी० एस० एम० ए० बी० एस० एम०, बीरब्रज, ए० डी० सी०, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110066—1 अगस्त, 1993।

निम्नलिखित को उनके वायु सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कमांडोर-इन-चीफ का रैंक प्रदान किया जाता है :—

एयर चीफ मार्शल एस० के० कौल, ए० वी० एस० एम०, एम० बी० सी०, ए० डी० सी०, वायु सेना अध्यक्ष, वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली—1 अक्टूबर, 1993।

पी०सी० उप्पल, त्रिगोडियर
 उप महाविदेशक (एम० एस०)

तटरक्षक

सं० 197 दिनांक 15 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्यकारी कमांडेंटों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से कमांडेंट के रैंक में स्थायी करते हैं :—
 सामान्य ड्यूटी :—

- (क) एल० एस० असाई (0024-डी)—23 जून, 1992।
 (ख) ए० के० वर्मा (0045 सी)—23 जून, 1992।
 (ग) ए० के० सहोरे (0038 एल)—30 जून, 1992।
 (घ) वी० जे० एस० चावला (0037 जे)—1 जुलाई, 1992।
 (ङ) बी० के० पतसाहनी (0044 एक्स)—1 जुलाई, 1992।
 (च) आलोक दीक्षित (0040 पी)—6 जुलाई, 1992।
 (छ) एम० मुरली (0039 एम)—10 जुलाई, 1992।
 तकनीकी ड्यूटी :—
 (ज) आर रंजन (4010 एम)—23 जून, 1992।
 (झ) के० एन० गुप्ता (5003 एस)—23 जून, 1992।

बाबू चेरियन,
 डैस्क अफसर

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 198, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा

1. रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के श्री के० वी० नारायण मूर्ति, वैज्ञानिक "सी" को दिनांक 5 जुलाई, 1993 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थाना-पन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में।

2. इस सम्बन्ध में पहले जारी राजपत्र अधिसूचना को रद्द किया जाता है।

1. रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद की श्रीमती एम० नलिनी वैज्ञानिक "बी" को दिनांक 6 जुलाई, 1992 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के रूप में।

2. इस सम्बन्ध में पहले जारी राजपत्र अधिसूचना को रद्द किया जाता है।

डी० जे० एम्ब्यू,
 सहायक निदेशक (कार्मिक)

(सेना विभाग)

सं० 199, दिनांक 7 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लैफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

मेजर जनरल एम० वर्मा (आई० सी०-8572), ए० ओ० सी०-1 जुलाई, 1993।

मेजर जनरल ए० के० गौतमा (आई० सी०-10489), ए० सी०-22 जुलाई, 1993 से परन्तु वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 15 सितम्बर, 1992 दी जायेगी।

मेजर जनरल जे० एस० डुगल (आई० सी०-10429); सिग्नल्स-28 सितम्बर, 1993।

मेजर जनरल एम० तलवार (आई० सी०-10457), वि० से० मे०, ए० ओ० सी०-21 अक्टूबर, 1993।

बी० एम० निर्वाण,
सहायक सेना सचिव

सं० 200, दिनांक 9 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले० कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

शान्गरा सिंह (आई० सी०-23806 एम), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

के० एस० गुजराल (आई० सी०-23828 एल), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

सी० आर० रामाचन्द्रन (आई० सी०-23877 एन), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

ए० के० बावा (आई० सी०-23912 एल), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

एन० एम० शर्मा (आई० सी०-23993 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

एच० सी० रस्टोगी (आई० सी०-23702 एल), आर्टि०-1 फरवरी, 1993।

एस० एन० हुडा (आई० सी०-23698 एन), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

डी० आर० चौधरी (आई० सी०-29416 ए), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

आर० एन० राठौर (आई० सी०-29459 पी), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

जी० एम० गिल (आई० सी०-29581 एल), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

एम० एस० साहनी (आई० सी०-29612 ए), ए० ओ० सी०-16 मार्च, 1993 से परन्तु वरिष्ठता 1 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एस० एस० मलिक (आई० सी० 28722 एच), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

दर्शन श्याम (आई० सी०-28725 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

आर० एस० मेहता (आई० सी०-28733 पी), ए० सी०-1 फरवरी, 1993।

अमर नाथ (आई० सी०-28738 एच), आर्टि०-1 फरवरी, 1993।

मनमोहन सिंह (आई० सी०-28749 ए), आर्टि०-1 फरवरी, 1993।

भगवान सिंह (आई० सी०-28753 एच), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

जे० पी० एस० रान्धवा (आई० सी०-28756 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

एम० पी० एम० बाजवा (आई० सी०-28758 एफ), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

बी० के० गौर (आई० सी०-28761 एफ), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

राजीव बिग (आई० सी०-28765 एक्स), आर्टि०-1 फरवरी, 1993।

एस० एस० सचदेवा (आई० सी०-28768 एल), आर्टि०-1 फरवरी, 1993।

डी० सी० त्यागी (आई० सी०-28774 बाई), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

एम० एस० उधवाल (आई० सी०-28776 के), इन्फैन्ट्री-1 फरवरी, 1993।

बी० के० गोस्वामी (आई० सी०-28782 एक्स), इन्फैन्ट्री-25 अप्रैल, 1993 से परन्तु वरिष्ठता 1 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० एस० बिजारनिया (आई० सी०-28789 एफ), ए० ओ० सी०-1 फरवरी, 1993।

डी० दबासगयाम (आई० सी०-28792 एफ), आर्टि०
—1 फरवरी, 1993।

एम० एस० भाकुर (आई० सी०-28793 के), इन्फैंट्री
—1 फरवरी, 1993।

के० के० कपुर (आई० सी०-28799 एल), आर्टि०—
1 फरवरी, 1993।

एच० एस० सन्धु (आई० सी०-26839 एच), ई० एम०
ई०—5 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

ए० एस० पुरी (आई० सी०-19585 एन), ई० एम०
ई०—15 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एस० सी० मोहन्ती (आई० सी०-24464 डब्ल्यू), ई०
एम० ई०—17 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल,
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

जे० एम० गुप्ता (आई० सी०-28205 एल), ई० एम०
ई०—21 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

विनोव कुमार (आई० सी०-19859 एन), ई० एम०
ई०—29 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

जगतार सिंह (आई० सी०-29190 ए), ई० एम० ई०—
28 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन
और पेंशन पर लागू नहीं।

राजेन्द्रा सिंह (आई० सी०-28547 बाई), ई० एम० ई०
—10 जून, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० शर्मा (आई० सी०-26812 एल), ई० एम०
ई०—31 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० के० खजूरिया (आई० सी०-26866 एम), ई० एम०
ई०—05 जून, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

पाल सिंह (आई० सी०-26998 ए), ई० एम० ई०—
23 अगस्त, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन
और पेंशन पर लागू नहीं।

के० आर० गेशासयी (आई० सी०-32427 बाई), ई०
एम० ई०—30 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल,
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० के० सलोमेन (आई० सी०-32433 एल), ई० एम०
ई०—14 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

यू० के० झा (आई० सी०-23334 एफ), ई० एम० ई०—
21 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन
और पेंशन पर लागू नहीं।

रंजीव मलुजा (आई० सी०-23361 एल), ई० एम०
ई०—21 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० डी० वाधवा (आई० सी०-23431 बाई), ई० एम०
ई०—02 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

जी० एम० टट्टा (आई० सी०-25359 एम), ई० एम०
ई०—07 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एन० एम० तिवारी (आई० सी०-25371 एन), ई० एम०
ई०—14 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

जी० एस० सेखान (आई० सी०-25378 एक्स), ई० एम०
ई०—04 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एस० के० आहुजा (आई० सी०-28299 एन), ई० एम०
ई०—15 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एम० एस० भट्टी (आई० सी०-28319 डब्ल्यू), ई०
एम० ई०—20 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल,
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० चौधरी (आई० सी०-28422 एफ), ए० एस०
सी०—01 अप्रैल, 1992।

एम० एस० खारा (आई० सी०-28437 के), ई० एम०
ई०—01 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

सतवीर सिंह (आई० सी०-28525 ए), ई० एम० ई०—
16 अगस्त, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० मेहरा (आई० सी०-28567 एम), ई० एम०
ई०—15 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

ई० जे० मीकाडो (आई० सी०-28784 एच), ई० एम० ई०-03 अगस्त, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

जोन मीघ्यू (आई० सी०-29145 एन), ई० एम० ई०-11 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० के० राजेन्द्रन (आई० सी०-29103 पी), ई० एम० ई०-01 सितम्बर, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

रवि खुल्लार (आई० सी०-25743 एन), ई० एम० ई०-17 अगस्त, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

जी० ए० नैय्यर (आई० सी०-25772 एच), ई० एम० ई०-21 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० डी० शर्मा (आई० सी०-23815 एन), ई० एम० ई०-29 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 सितम्बर, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

पीटर लोपस (आई० सी०-16339), सिगनल-02 फरवरी, 1991 परन्तु वरिष्ठता 01 अगस्त, 1987 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

डी० एस० मंजोरकर (आई० सी०-16563 के), ए० ओ० सी०-01 अक्टूबर, 1989 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

सी० डी० टोकस (आई० सी०-28804 एल), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

के० एस० ओगरा (आई० सी०-28805 एन), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

बी० के० आनन्द (आई० सी०-28808 एफ), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

एस० एन० यादव (आई० सी०-28809 के), ए० एस० सी०-01 फरवरी, 1993।

एम० सी० अप्पान्ना (आई० सी०-28834 एच), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

विश्वानाथ सिंह (आई० सी०-28840 डब्ल्यू), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

पी० एस० कृष्णामुरारी (आई० सी०-28849 एल), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

आर० के० देवेशर (आई० सी०-28850 ए), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

ए० पी० सिंह (आई० सी०-28865 एच), सिगस-01 फरवरी, 1993।

आर० के० मुवन (आई० सी०-28867 एन), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

आर० पी० सिंह (आई० सी०-28899 डब्ल्यू), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

सी० आर० एस० बहादुर (आई० सी०-28901 एच), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

बी० एस० जज (आई० सी०-28909 पी), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

एस० एस० गुलिया (आई० सी०-28912 पी), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

के० के० खुराना (आई० सी०-28914 ए), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

जी० बलभ (आई० सी०-28924 के), ए० एस० सी०-01 फरवरी, 1993।

जी० पी० खन्दूरी (आई० सी०-28966 डब्ल्यू), सिगस-01 फरवरी, 1993।

प्रेम कुमार (आई० सी०-28980 एच), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

एस० आर० मोहित (आई० सी०-28997 डब्ल्यू), इंजीनियर्स-01 फरवरी, 1993।

एस० के० कर (आई० सी०-28998 वार्ड), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

एस० चक्रवर्ती (आई० सी०-29009 एक्स), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

पी० एस० बहुखण्डी (आई० सी०-29023 के), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

आर० पी० नौटियाल (आई० सी०-29043 एक्स), आर्टि-01 फरवरी, 1993।

बी० के० कोसेर (आई० सी०-29060 एक्स), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

पी० आर० कथूरिया (आई० सी०-29087 पी), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

रविन्दर सिंह (आई० सी०-29123 पी), इन्फैंट्री-01 फरवरी, 1993।

ए० के० गौतम (आई० सी०-27143 के), इंजीनियर्स-01 फरवरी, 1993।

ए० के० कडियन (आई० सी०-27145 पी), इंजीनियर्स-05 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

यू० एस० पी० सिन्हा (आई० सी०-27146 एक्स)-28 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

दीपक पाण्डे (आई० सी०-27149 ए), सिगनल--01 फरवरी, 1993।

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में
(खयन द्वारा)

ए० के० बाही (आई० सी०-27392 एच), सिगनल--10 जून, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 जनवरी, 1993 में वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० एम० लुईस (आई० सी०-27395 डब्ल्यू), सिगनल--01 जनवरी, 1993।

धीरेन्द्र दसमाना (आई० सी०-27405 पी), इस्ट कोर--25 जनवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 जनवरी, 1993 में वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० सिंह (आई० सी०-27406 एक्स), इन्फैंट्री--01 जनवरी, 1993।

एच० एस० सिरोही (आई० सी०-27408 एच), इन्फैंट्री--01 जनवरी, 1993।

के० पी० एस० राना (आई० सी०-27409 एल), इन्फैंट्री--01 जनवरी, 1993।

बी० एस० श्रीवास्तवा (आई० सी०-27413 एन), आर्टि०--01 जनवरी, 1993।

एच० एस० त्रिपाठी (आई० सी०-27418 एम), आर्टि०--01 जनवरी, 1993।

फतेह सिंह (आई० सी०-27420 के), इन्फैंट्री--01 जनवरी, 1993।

के० एस० अईथमान (आई० सी०-27425 एच), इन्फैंट्री--01 जनवरी, 1993।

डब्ल्यू० जी० मैपरथ (आई० सी०-27426 एल) ए० एस० सी०--01 जनवरी, 1993।

आर० एस० राना (आई० सी०-27433 एफ), इन्फैंट्री--01 जनवरी, 1993।

महीपाल शर्मा (आई० सी०-27436 पी), ए० एस० सी०--01 जनवरी, 1993।

डी० के० भैथाना (आई० सी०-27442 एच), आर्टि०--01 फरवरी, 1993।

निर्मल सिंह (आई० सी०-27443 एल), आर्टि०--01 फरवरी, 1993।

पी० बी० गुरंग (आई० सी०-27446 वाई), इन्फैंट्री--01 फरवरी, 1993।

पी० पी० बूड (आई० सी०-27453 पी), इन्फैंट्री--01 फरवरी, 1993।

एस० एस० किशोरा (आई० सी०-27455 ए), आर्टि०--01 फरवरी, 1993।

टी० सी० मोहन (आई० सी०-27456 एच), आर्टि०--01 फरवरी, 1993।

एल० जे० एम० बेन्स (आई० सी०-32816 एक्स), इंजीनियर्स--01 नवम्बर, 1992।

बी० कनवर (आई० सी०-32817 ए), ए० ओ० सी०--01 नवम्बर, 1992।

एस० एन० यादव (आई० सी०-32847 एक्स), आर्टि०--01 नवम्बर, 1992।

पी० बी० अल्लावलि (आई० सी०-32856 वाई), आर्टि०--01 नवम्बर, 1992।

एस० के० चौधरी (आई० सी०-32860 एफ), इन्फैंट्री--01 नवम्बर, 1992।

सुनित कुमार (आई० सी०-32862 एम), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर, 1992।

ए० के० श्रीवास्तवा (आई० सी०-32885 एन), जे० ए० सी०--01 दिसम्बर, 1992।

जे० एन० मलिक (आई० सी०-32891 एफ), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर, 1992।

रणधीर सिंह (आई० सी०-32914 एक्स), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर, 1992।

एस० के० मजुमदार (आई० सी०-32931 एन), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर, 1992।

एच० जे० के० सिंह (आई० सी०-32955 एफ), ए० ई० सी०--08 जून, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 में वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० बी० नारायणास्वामी (आई० सी०-36189 एन), ई० एम० ई०--04 मई, 1993 में परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 में वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० चूडा (आई० सी०-36190 एच), ई० एम० ई०--15 जून, 1993 में परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 में वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० एस० कंवर (आई० सी०-27195 ए), ए० सी०--01 दिसम्बर, 1992।

बी० के० चोना (आई० सी०-27196 एच), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर, 1992।

विनोद जोर्ज (आई० सी०-27197 एल), इंजीनियर्स--01 दिसम्बर, 1992।

टी० आर० कृष्णन (आई० सी०-27198 एन), इन्फैंट्री—01 दिसम्बर, 1992।

एस० बी० कुलकर्णी (आई० सी०-27199 डब्ल्यू), आर्टि०—01 दिसम्बर, 1992।

जे० एस० वलाल (आई० सी०-27200 ए), इन्फैंट्री—01 दिसम्बर, 1992।

एस० के० सिंह (आई० सी०-27203 एन), इन्फैंट्री—01 दिसम्बर, 1992।

बी० के० शर्मा (आई० सी०-27204 डब्ल्यू), इन्फैंट्री—01 दिसम्बर, 1992।

विनय भटनागर (आई० सी०-27205 वार्ड), इन्फैंट्री—01 दिसम्बर, 1992।

एस० पी० सिन्हा (आई० सी०-27206 एफ), ए० ग्री० सी०—01 दिसम्बर, 1992।

आर० एस० उदावत (आई० सी०-27209 पी), ए० सी०—01 दिसम्बर, 1992।

बी० के० गुप्ता (आई० सी०-27210 के), आर्टि०—01 दिसम्बर, 1992।

अमिल कुमार (आई० सी०-27211 एम), आर्टि०—01 दिसम्बर, 1992।

जे० के० शर्मा (आई० सी०-27212 पी), ई० एम० ई०—26 मार्च, 1993 से परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

विकास कपूर (आई० सी०-27213 एक्स), आर्टि०—01 दिसम्बर, 1992।

एस० के० मनगोला (आई० सी०-32727 वार्ड), इन्फैंट्री—01 अक्टूबर, 1992।

विजय सक्सेना (आई० सी०-32728 एफ), ए० सी०—01 अक्टूबर, 1992।

यू० एम० मनडेरकर (आई० सी०-32731 एफ), ए० सी०—01 अक्टूबर, 1992।

बी० के० मल्होत्रा (आई० सी०-32733 एम), आर्टि०—01 अक्टूबर, 1992।

सी० एम० हरनेल (आई० सी०-32738 एल), ई० एम० ई०—26 अप्रैल, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अक्टूबर, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

चिगविजय सिंह (आई० सी०-32739 एन), इन्फैंट्री—01 अक्टूबर, 1992।

कुलवीप सिंह (आई० सी०-32743 डब्ल्यू), इन्फैंट्री—01 अक्टूबर, 1992।

तरसेम सिंह (आई० सी०-32745 एफ), ए० एम० सी०—01 अक्टूबर, 1992।

के० सुब्रामणियन (आई० सी०-32746 के), आर्टि०—01 अक्टूबर, 1992।

डी० के० सिंह (आई० सी०-32748 पी), आर्टि०—01 अक्टूबर, 1992।

आर० के० टिक्कू (आई० सी०-32749 एक्स), इन्फैंट्री—01 अक्टूबर, 1992।

अजीत कमल (आई० सी०-32750 एम), इन्फैंट्री—01 अक्टूबर, 1992।

पी० बी० डेविड (आई० सी०-32752 एक्स), ए० एस० सी०—01 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 नवम्बर, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० रमनी (आई० सी०-32756 एन), आर्टि०—01 नवम्बर, 1992।

हरीश सिबल (आई० सी०-32757 डब्ल्यू), इंजीनियर—01 नवम्बर, 1992।

आई० एम० सिंह (आई० सी०-32759 एफ), ए० सी०—01 नवम्बर, 1992।

हरदेव सिंह (आई० सी०-32761 वार्ड), आर्टि०—01 नवम्बर, 1992।

लोखेन्द्रा सिंह (आई० सी०-32762 एफ), इन्फैंट्री—01 नवम्बर, 1992।

एम० एस० सन्धू (आई० सी०-32764 एम), इन्फैंट्री—01 नवम्बर, 1992।

एच० सी० मरवाह (आई० सी०-32767 ए), आर्टि०—01 नवम्बर, 1992।

बी० के० शर्मा (आई० सी०-32768 एच), इन्फैंट्री—01 नवम्बर, 1992।

कलटन सोलोमन (आई० सी०-32775 वार्ड), इन्फैंट्री—01 नवम्बर, 1992।

एम० एस० चौहान (आई० सी०-32779 पी), इन्फैंट्री—01 नवम्बर, 1992।

जे० एस० राठौर (आई० सी०-32784 ए), ए० सी०—01 नवम्बर, 1992।

एस० एस० पबला (आई० सी०-32787 एन), इंजीनियर—01 नवम्बर, 1992।

एन० एन० मक्का (आई० सी०-32792 वाई) इन्फैंट्री—
01 नवम्बर, 1992।

वी० बी० सिंह (आई० सी०-32793 एफ), इन्फैंट्री—
01 नवम्बर, 1992।

जे० मुसाईनाथन (आई० सी०-32796 पी), ए० ओ०
सी०—01 नवम्बर, 1992।

मनजीत सिंह (आई० सी०-32803 ए), ए० ओ० सी०—
15 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 नवम्बर, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

सी० एम० सन्धू (आई० सी०-32809 एफ), इन्फैंट्री—
01 नवम्बर, 1992।

बीजेन्द्रा सिंह (आई० सी०-32488 पी), ए० सी०—
01 जून, 1992।

एस० बद्रीनारायणन (आई० सी०-32490 एम), इंजीनियर्स—
01 जून, 1992।

बी० बी० शर्मा (आई० सी०-39493 ए), ई० एम०
ई०—15 जून, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 जून, 1992
से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० एस० खत्री (आई० सी०-32495 एल), इन्फैंट्री—
01 जुलाई, 1992।

एस० झीरीरमुलु (आई० सी०-32496 एन), आर्टि०—
01 जुलाई, 1992।

एम० एस० जम्बवाल (आई० सी०-32498 वाई),
इन्ट कोर—14 अगस्त, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई;
1992 से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

गुरु किरपल सिंह (आई० सी०-32511 एक्स), ई० एम०
ई०—08 जनवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई,
1992 से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

सुधीर कुमार (आई० सी०-32516 डब्ल्यू), सिग्स—
01 जुलाई, 1992।

के० ए० उठायह (आई० सी०-32526 ए), इन्फैंट्री—
01 जुलाई, 1992।

मुरिन्दर सिंह (आई० सी०-32529 एन), इन्फैंट्री—
01 जुलाई, 1992।

जतिन्दर सिंह (आई० सी०-32531 एल), इंजीनियर्स—
01 जुलाई, 1992।

जे० पी० गुरजर (आई० सी०-32533 डब्ल्यू), इन्फैंट्री—
01 जुलाई, 1992।

शे० के० रैता (आई० सी०-32542 एक्स), ए० सी०—
01 जुलाई, 1992।

टी० जी० वैकटेश (आई० सी०-32547-डब्ल्यू), ई० एम०
ई०—19 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई,
1992 से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० के० मल्होत्रा (आई० सी०-32550 डब्ल्यू),
इन्फैंट्री—01 जुलाई, 1992।

विजय कुमार (आई० सी०-32551 वाई), इन्फैंट्री—
01 जुलाई, 1992।

के० एस० साही (आई० सी०-32552 एफ), ए० एस०
सी०—25 अगस्त, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई,
1992 से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० मुधुस्वामी (आई० सी०-32557 ए); इंजीनियर्स—
01 जुलाई, 1992।

सन्दीप भल्ला (आई० सी०-32579 वाई), ए० ओ०
सी०—01 अगस्त, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई, 1992
से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

सतीश कुमार (आई० सी०-32584 के) सिग्स—
01 जुलाई 1992।

पी० ए० अगुस्तीन (आई० सी०-32586 पी), आर्टि०—
01 जुलाई, 1992।

मुनील भलिक (आई० सी०-32589 एच), आर्टि०—
01 जुलाई, 1992।

आई० एन० झा (आई० सी०-32593 एल), इन्फैंट्री—
01 जुलाई, 1992।

जे० बन्तलेमन (आई० सी०-32611 एच), सिग्स—
01 जुलाई, 1992।

जी०के० बालाकृष्णा (आई० सी०-32624 ए), आर्टि०—
01 जुलाई, 1992।

आर० के० जैन (आई० सी०-32627 एन), ए० ओ० सी०
—01 अक्टूबर, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई, 1992
से परन्तु वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० आर० के० प्रसाद (आई० सी०-32634 के), सिग्स
—01 जुलाई, 1992।

एम० एस० बिसला (आई० सी०-32635 एम), इन्फैंट्री
—01 अगस्त, 1992।

एस० के० सूद (आई० सी०-32636 पी), इन्फैंट्री—01
अगस्त, 1992।

आर० सी० लड्डूवाहा (आई० सी०-27175 एच), ए० ई०
सी०—22 जुलाई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० एल० यादव (आई० सी०-32528 एल०, ए०ई० सी०-01 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 जुलाई, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

देवेन्द्रा सिंह (आई० सी०-32658 एन), इन्फैंट्री-01 अगस्त, 1992।

के० चक्रवर्ती (आई० सी०-27070 एच), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

जी० एल० पनेरी (आई० सी०-27071 एल), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

जी० सिंह (आई० सी०-27075 एफ), ए० ओ० सी०-15 अगस्त, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० के० मेहता (आई० सी०-27076 के), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

एस० एल० ए० खान (आई० सी०-27078 पी), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

वी० पी० एस० मेखोन (आई० सी०-27082 एक्स), आर्टि०-01 अप्रैल, 1992।

एस० के० गुप्ता (आई० सी०-27088 वार्ड), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

एस० पी० खालखो (आई० सी०-27089 एफ), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

ए० पी० एस० सन्धु (आई० सी०-27091 वार्ड), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

जगदीश मवान (आई० सी०-27094 एम), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

एस० डी० पावर (आई० सी०-27099), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

एच० के० सिंह (आई० सी०-27100 पी), सिरस-01 अप्रैल, 1992।

सुखवीर सिंह (आई० सी०-27101 एकम), ए० एस० सी०-01 अप्रैल, 1992।

जगमोहन सिंह (आई० सी०-27104 एल), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

जी० एस० नरला (आई० सी०-27106 डब्ल्यू), ए० ओ० सी०-16 अगस्त, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

ए० के० उदामी (आई० सी०-27109 के), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

जगदीश सिंह (आई० सी०-27112 के), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

जी० पी० सिन्हा (आई० सी०-27115 एक्स), ए० सी०-01 अप्रैल, 1992।

एच० सी० मेठी (आई० सी०-27119 एन), आर्टि०-01 अप्रैल, 1992।

राज कपूर (आई० सी०-27125 एफ), ए० ओ० सी०-24 अगस्त, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० एस० गुलिया (आई० सी०-27127 एम), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

दीपक जोशी (आई० सी०-27130 एम), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

एच० एस० भण्डाल (आई० सी०-27153 एन), ए० ई० सी०-15 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० ए० आर० सुब्रता (आई० सी०-29557 एफ), इंजी-नियर्स-01 अप्रैल, 1992।

एम० सिंह (आई० सी०-32720 पी), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

आर० पी० सिंह (आई० सी०-32724 एल), इन्फैंट्री-01 अप्रैल, 1992।

ए० एस० छहवाल (आई० सी०-32730 वार्ड), आर्टि०-01 अप्रैल, 1992।

जे० एस० ग्रेवाल (आई० सी०-32765 पी), इन्फैंट्री-01 मई, 1992।

एम० सी० कुन्नाथ (आई० सी०-32771 एच), आर्टि०-01 मई, 1992।

पी० सी० पन्जीकर (आई० सी०-27256 एम), इन्फैंट्री-01 दिसम्बर, 1992।

एस० एस० जोगलेकर (आई० सी०-27257 पी), सिरस-01 दिसम्बर, 1992।

रविन्दर सिंह (आई० सी०-27258 एक्स), इन्फैंट्री-01 दिसम्बर, 1992।

वी० एस० चौधरी (आई० सी०-27259 ए), आर्टि०-01 दिसम्बर, 1992।

पी० कुमार (आई० सी०-27262 ए), आर्टि०-01 दिसम्बर, 1992।

ए० सी० मोनेजा (आई० सी०-27264 एन), इन्फैन्ट्री—
01 दिसम्बर, 1992।

बी० बी० नैगर (आई० सी०-27265 एन), आर्टि—
01 दिसम्बर, 1992।

एन० नगेन्द्र (आई० सी०-27267 आई), इन्फैन्ट्री—
01 दिसम्बर, 1992।

एम० बी० अणब (आई० सी०-27268 एफ), सिग्स—
01 दिसम्बर, 1992।

एम० एम० सेनगुप्ता (आई० सी०-27269 के), इंजीनियर्स
—01 दिसम्बर, 1992।

बी० एम० शोखावत (आई० सी०-27270 आई), इन्फैन्ट्री
—01 दिसम्बर, 1992।

डी० पी० सिंह (आई० सी०-27271 एफ), इन्फैन्ट्री—
01 दिसम्बर, 1992।

आई० बी० सिंह (आई० सी०-27274 पी) ए० सी०—
01 दिसम्बर, 1992।

सी० डी० देवकुमार (आई० सी०-27275 एक्स), आर्टि०
—01 दिसम्बर, 1992।

ईस्वर सिंह (आई० सी०-27276 ए), इन्फैन्ट्री—01
दिसम्बर, 1992।

एम० एस० अहलावन (आई० सी०-27277 एच), ए०
सी०—01 दिसम्बर, 1992।

पी० के० राजबोवा (आई० सी०-27383 डब्ल्यू),
आर्टि०—01 दिसम्बर, 1992।

विनय सागर (आई० सी०-27285 एफ), ई० एम० ई०
—14 नई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 में
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

ए० के० ओरल (आई० सी०-27286 के), आर्टि०—
01 दिसम्बर, 1992।

जी० बी० बोलतानी (आई० सी०-27287 एम), सिग्स
—01 दिसम्बर, 1992।

एम० जी० गोड्डने (आई० सी०-27288 पी), आर्टि०—
01 दिसम्बर, 1992।

ए० एच० शत्रे (आई० सी०-27289 एक्स), आर्टि०—
01 दिसम्बर, 1992।

रामेश हनगलि (आई० सी०-27290 एम), इन्फैन्ट्री—
01 दिसम्बर, 1992।

राजश्री आर्या (आई० सी०-27295 एन), ए० सी०—
01 दिसम्बर, 1992।

के० ए० करियप्पा (आई० सी०-27297 डब्ल्यू), सिग्स
—01 दिसम्बर, 1992।

बी० एम० बिर्गी (आई० सी०-27299 एफ), ए० ओ०
सी०—15 दिसम्बर, 1992 परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर,
1992 में वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एल० जे० सिंह (आई० सी०-27300 एन), इन्फैन्ट्री—
01 दिसम्बर, 1992।

आई० एस० शाही (आई० सी०-27303 आई), आर्टि०—
01 दिसम्बर, 1992।

रा० ए० भाग (आई० सी०-27304 एफ), ए० सी०—
—01 दिसम्बर, 1992।

एच० एम० वेदी (आई० सी०-27305 के), ए० सी०—
01 दिसम्बर, 1992।

मंजीत सिंह, सी० एस० ओ०
उप सहायक सेना सचिव-8ए

सं० 201, दिनांक 3 फरवरी, 1994—थल सेना
आदेश 37/78 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक वृत्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

मेजर से ले० कर्नल के रैंक में

एम० कार्कूत (डा० आर०-10309 के)—24
दिसम्बर, 1993।

कैप्टन से मेजर के रैंक में

बी० बी० मंडलीक (डी० आर०-10420 एन)—10
दिसम्बर, 1993।

एम० आर० वसन (डी० आर०-10410 के)—14
दिसम्बर, 1993।

बी० के० सूद, ब्रिगेडियर
डिप्टी डी० जी० डी० एस०

सं० 202, दिनांक 14 फरवरी 1994—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

जासूचना कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार भाग सिंह (सं० 4060793 डब्ल्यू अब जे० सी०-
810053 एन)—18 अगस्त, 1993।

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता दिनांक 01 अगस्त, 1993 से दी जाती है।)

हवलदार लालेन भुटिया (सं० 9415489 एच अब जे० सी०-810055 वाई)--06 अगस्त, 1993।

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता दिनांक 01 अगस्त, 1993 से दी जाती है।)

हवलदार बनारसी लाल (सं० 7430310 पी अब जे० सी०-810068 डब्ल्यू)--08 दिसम्बर, 1993।

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर, 1993 से दी जाती है।)

हवलदार रोशन लाल मकलानी (सं० 4053667 एफ अब जे० सी०-810069 वाई)--01 अक्टूबर, 1993।

हवलदार लाभ सिंह (सं० 3377689 एफ अब जे० सी० 810071 डब्ल्यू)--06 नवम्बर, 1993।

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर, 1993 से दी जाती है।)

हवलदार बैस बहादुर गुरूग (सं० 5448112 ए अब जे० सी०-810072 वाई)--01 अक्टूबर, 1993।

हवलदार तुलसी राम (सं० 13743606 के अब जे० सी०-810077 एक्स)--01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (अनुवादक) के पद में

हवलदार (अनुवादक) विजय कुमार (सं० 1066918 डब्ल्यू अब जे० सी०-810033 ए)--27 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार (लिपिक) के पद में

हवलदार (लिपिक) राज पाल (सं० 14310938 डब्ल्यू अब जे० सी०-810073 एफ)--06 दिसम्बर, 1993।

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता दिनांक 01 नवम्बर, 1993 से दी जाती है।)

हवलदार (लिपिक) रमेल चन्द (सं० 14310999 एन अब जे० सी०-810074 के)--04 नवम्बर, 1993।

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता दिनांक 01 नवम्बर, 1993 से दी जाती है।)

हवलदार (लिपिक) चांद राम भारद्वाज (सं० 2664511 पी अब जे० सी०-810075 एम)--01 नवम्बर, 1993।

हवलदार (लिपिक) अमूल्य बरूआ (सं० 7430303 वाई अब जे० सी०-810076 पी)--01 नवम्बर, 1993।

प्रेम कुमार हंस,
वेस्ट अधिकारी,

सं० 203, दिनांक 15 फरवरी, 1994--राष्ट्रपति निम्नलिखित पक्षोन्वतियां करते हैं :-

नियमित में।

तां.पञ्चाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार शिन्दे धोन्डीराम जगन्नाथ (सं० 14329664 एन अब जे० सी०-255819 एफ)--08 अक्टूबर, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई, 1992।)

हवलदार वरगीस पी० ए० (सं० 14455955 एक्स अब जे० सी०-255820 डब्ल्यू)--01 दिसम्बर, 1992।

बी० एच० एम० धना मेखरन (सं० 1256605 एन अब जे० सी०-255821 वाई)--08 दिसम्बर, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर, 1992।)

बी० एच० एम० नगीना सिंह (सं० 1257950 एन अब जे० सी०-255822 एफ)--29 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1992।)

आर० एच० एम० अतुल चन्द्रा भुयन (सं० 1267593 के अब जे० सी०-255823 के)--20 नवम्बर, 1992।

बी० एच० एम० गोविन्द राम (सं० 14451193 एक्स अब जे० सी०-255824 एम)--20 नवम्बर, 1992।

हवलदार पाटील भालामाहेब तुकाराम (सं० 14474935 वाई अब जे० सी०-255825 पी)--20 नवम्बर, 1992।

आर० एच० एम० नन्द लाल मिना (सं० 14313254 एन अब जे० सी०-255826 एक्स)--20 नवम्बर, 1992।

हवलदार रमेश चन्द (सं० 14308898 एफ अब जे० सी०-255827 ए)--01 दिसम्बर, 1992।

आर० एच० एम० कुशल सिंह (सं० 14328810 एन अब जे० सी०-255828 एच)--24 मई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1992।)

हवलदार कुलवंत सिंह (सं० 1266226 एन अब जे० सी - 255829 एल)--01 दिसम्बर, 1992।

हवलदार रमेश चन्दर (सं० 1260952 के अब जे० सी - 255830 ए)--02 फरवरी, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर, 1992।)

बी० एच० एम० श्रीती भास्कर भागुजी (सं० 14325373 एन अब जे० सी - 255831 एच)--24 मई, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1993।)

आर० एच० एम० शोम प्रकाश (सं० 1262075 ए अत्र जे० सी०—255832 एल) — 28 जनवरी, 1993।

बी० एच० एम० द. मोदर सिंह (सं० 1256648 एफ अत्र जे० सी०—255833 एन) — 09 मार्च, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1993।)

हवलदार नरेश कुमार लखनपाल (सं० 1264729 एम अत्र जे० सी०—255834 डब्ल्यू) — 02 जुलाई, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च, 1993।)

हवलदार एम० बालासुब्रमनीयम (सं० 1261717 एक्स अत्र जे० सी०—255835 वार्ड) — 25 जून, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993।)

बी० एच० एम० रोहनास सिंह (सं० 14322328 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—255836 एफ) — 31 मई, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1993।)

हवलदार मने राम (सं० 14350158 एन अत्र जे० सी०—255837 के) — 11 मई, 1993।

बी० एच० एम० जयसिंह (सं० 14320814 एम अत्र जे० सी०—255838 एम) — 01 जून, 1993।

हवलदार सुरेश के० सी० (सं० 14328968 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—255839 पी) — 01 जून, 1993।

हवलदार देवराज सिंह मनाहाम (सं० 1251682 वार्ड अत्र जे० सी०—255840 के) — 01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० तारू सिंह (सं० 1265416 एल अत्र जे० सी०—255841 एम) — 01 जुलाई, 1993।

हवलदार राम क्याल सिंह (सं० 1255481 के अत्र जे० सी०—255842 पी) — 01 जुलाई, 1993।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 1255811 एल अत्र जे० सी०—255843 एक्स) — 01 जुलाई, 1993।

हवलदार सद्दुल सिंह (सं० 1262823 एच० अत्र जे० सी०—255844 ए) — 01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० विजय कुमार (सं० 14451139 के अत्र जे० सी०—255845 एच) — 01 जुलाई, 1993।

हवलदार महाबीर सिंह (सं० 14451804 एफ अत्र जे० सी०—255846 एन) — 01 जुलाई, 1993।

हवलदार दलीप सिंह यादव (सं० 1268729 पी अत्र जे० सी०—255847 एन) — 01 जुलाई, 1993।

हवनदार मंगला सिंह यादव (सं० 1259201 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—255848 डब्ल्यू) — 10 जुलाई, 1993।

हवलदार विरेन्दर सिंह यादव (सं० 1267544 एफ अत्र जे० सी०—255849 वार्ड) — 14 अगस्त, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जुलाई, 1993।)

हवलदार जोहन मशाच ईलुरी (सं० 14325877 एफ अत्र जे० सी०—255850 एन) — 11 अगस्त, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1993।)

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 1251746 वार्ड अत्र जे० सी०—255851 डब्ल्यू) — 01 अगस्त, 1993।

हवलदार भूपीन्दर सिंह (सं० 1269080 एन अत्र जे० सी०—255852 वार्ड) — 30 नवम्बर, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1993।)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार गम बहादुर गुरंग (सं० 14311938 एच अत्र जे० सी०—255754 वार्ड) — 01 अगस्त, 1992।

हवलदार राम अत्रतार (सं० 14302172 एच अत्र जे० सी०—255755 एफ) — 01 सितम्बर, 1992।

बी० एच० एम० सुधी कांत (सं० 14316124 एन अत्र जे० सी०—255756 के) — 06 अक्टूबर, 1992।

हवलदार विरेन्दर सिंह यादव (सं० 1263387 पी अत्र जे० सी०—255757 एम) — 01 अक्टूबर, 1992।

हवलदार क्रिशन सिंह (सं० 14455423 एक्स अत्र जे० सी०—255758 पी) — 01 अक्टूबर, 1992।

हवलदार मदन लाल (सं० 14317506 के अत्र जे० सी०—255759 एक्स) — 03 अक्टूबर, 1992।

हवलदार सुखदेव (सं० 11144220 वार्ड अत्र जे० सी०—255760 एम) — 01 नवम्बर, 1992।

हवलदार सुलखान सिंह (सं० 1265747 ए अत्र जे० सी०—255761 पी) — 04 नवम्बर, 1992।

बी० एच० एम० लाल सिंह (सं० 14316167 एव अत्र जे० सी०—255762 एक्स) — 09 नवम्बर, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी, 1992।)

हवलदार दलजिन्दर सिंह (सं० 14308384 के अब जे० सी०-255763 ए) --10 जुलाई, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर, 1992 ।)

हवलदार परमजित सिंह (सं० 14321962 एम अब जे० सी०-255764 ए) --25 नवम्बर, 1992 ।

बी० एच० एम० प्रद्विप कुमार पी (सं० 14316403 वाई अब जे० सी०-255765 ए) --30 नवम्बर, 1992 ।

हवलदार एन० मरीमुथु (सं० 1265874 एफ अब जे० सी०-255766 ए) --30 नवम्बर, 1992 ।

हवलदार अमीर सिंह (सं० 14329958 वाई अब जे० सी०-255767 डब्ल्यू) --30 नवम्बर, 1992 ।

बी० एच० एम० बलबीर सिंह (सं० 14321275 डब्ल्यू अब जे० सी०-255768 वाई) --01 दिसम्बर, 1992 ।

हवलदार के० आर० पाटील (सं० 1268117 एक्स अब जे० सी०-255769 एफ) --13 जनवरी, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 ।)

हवलदार पी० वी० रामदासन (सं० 14321578 एल अब जे० सी०-255770 डब्ल्यू) --01 दिसम्बर, 1992 ।

हवलदार वेद प्रकाश (सं० 14455511 एन अब जे० सी०-255771 वाई) --05 दिसम्बर, 1992 ।

हवलदार करम सिंह यादव (सं० 1268848 एल अब जे० सी०-255772 एफ) --01 जनवरी, 1993 ।

हवलदार विना नाय मिश्रा (सं० 14330040 एल अब जे० सी०-255773 के) --01 जनवरी, 1993 ।

हवलदार लिलाराम (सं० 14319800 एच अब जे० सी०-255774 एम) --01 जनवरी, 1993 ।

हवलदार राज कुमार (सं० 1266826 एन अब जे० सी०-255775 पी) --01 जनवरी, 1993 ।

हवलदार शोख मौलाली (सं० 14323854 एफ अब जे० सी०-255776 एक्स) --26 जून, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1993 ।)

आर० एच० एम० रतन लाल यादव (सं० 14325420 ए अब जे० सी०-255777 ए) --01 जनवरी, 1993 ।

बी० एच० एम० बचन सिंह (सं० 1264438 एक्स अब जे० सी०-255778 ए) --07 जनवरी, 1993 ।

आर० एच० एम० ए० बुराईसामी (सं० 1261471 के जे० सी०-255779 ए) --13 जनवरी, 1993 ।

आर० एच० एम० कन्वर सिंह कंदरी (सं० 14322655 एफ अब जे० सी०-255780 ए) --01 फरवरी, 1993 ।

हवलदार शोम बीर सिंह (सं० 1267160 एम अब जे० सी०-255781 ए) --28 फरवरी, 1993 ।

हवलदार परशोत्तम सिंह (सं० 14453365 ए अब जे० सी०-255782 एल) --28 फरवरी, 1993 ।

हवलदार गोपाल उदे भानजी नावरकर (सं० 14329623 एफ अब जे० सी०-255783 एन) --01 मार्च, 1993 ।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 1431377 4 डब्ल्यू अब जे० सी०-255784 डब्ल्यू) --29 मई, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1993 ।)

बी० एच० एम० प्रेम पाल (सं० 14317639 ए अब जे० सी०-255785 वाई) --30 जुलाई, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1993 ।)

बी० एच० एम० नारा चन्द (सं० 14317507 एम अब जे० सी०-255786 एफ) --01 मार्च, 1993 ।

बी० एच० एम० अनार चन्द कुमारन (सं० 4053294 वाई अब जे० सी०-255787 के) --08 अगस्त, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1993 ।)

बी० एच० एम० अहू बीर सिंह रावन (सं० 14320529 डब्ल्यू अब जे० सी०-255788 एम) --01 अप्रैल, 1993 ।

बी० एच० एम० जगदल सिंह (सं० 14320755 एन अब जे० सी०-255789 पी) --01 अप्रैल, 1993 ।

हवलदार सुवर्धन राम (सं० 14452955 एम अब जे० सी०-255790 के) --01 अप्रैल, 1993 ।

हवलदार अमी चन्द (सं० 14316479 वाई अब जे० सी०-255791 एम) --01 मई, 1993 ।

हवलदार हंस राज (सं० 14303267 पी अब जे० सी०-255792 पी) --14 जून, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1993 ।)

हवलदार एस० सिताराम (सं० 14327271 डब्ल्यू अब जे० सी०-255793 एक्स) --01 मई, 1993 ।

बी० एच० एम० ए० कृष्णा मूर्ती (सं० 14454856 एच अब जे० सी०-255794 ए) --01 मई, 1993 ।

बी० एच० एम० चमन लाल (सं० 11078519 डब्ल्यू अब जे० सी०-255795 ए) --01 मई, 1993 ।

बी० एच० एम० ए० सेलवारज (सं० 1259360 एन
अब जे० सी०—255796 एल)—22 जुलाई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1993।)

हवलदार तेजपाल यादव (सं० 14343537 एफ अब
जे० सी०—255797 एन)—01 मई, 1993।

बी० एच० एम० कुलजीत सिंह थंडी (सं० 1269322 एल
अब जे० सी०—255798 डब्ल्यू)—01 जून, 1993।

बी० एच० एम० राम कुमार (सं० 14320920 एन अब
जे० सी०—255799 वाई)—01 जून, 1993।

हवलदार पवार किशोर दत्ताराम (सं० 14476937 एच
अब जे० सी०—255800 एच)—01 जून, 1993।

आर० एच० एम० प्रितम चन्द (सं० 11160956 एच अब
जे० सी०—255801 एल)—01 जून, 1993।

बी० एच० एम० सुभाष चन्दर (सं० 14451595 पी
अब जे० सी०—255802 एन)—27 अगस्त, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1993।)

आर० एच० एम० कुरेल जय प्रकाश नारायण (सं०
14454730 एच अब जे० सी०—255803 डब्ल्यू)—21
जुलाई, 1993।)*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 04 जून, 1993।)

हवलदार सत्य पाल (सं० 14330638 डब्ल्यू अब जे० सी०
—255804 वाई)—17 जून, 1993।

हवलदार मुकुन्द सिंह (सं० 14310485 डब्ल्यू अब जे०
सी० 255805 एफ)—01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० ईश्वर सिंह (सं० 14303121 एफ अब
जे० सी०—255806 के)—01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० शाम बहादुर थापा (सं० 5445147 एल
अब जे० सी०—255807 एम)—01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० काश्मीर सिंह (सं० 1266080 एच) अब
जे० सी०—255808 पी)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार बसप्पा उदेकरी (सं० 14313963 ए अब
जे० सी०—255809 एक्स)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार अशरफा लाल राजपूत (सं० 14321185 पी
अब जे० सी०—255810 एम)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार काले मनोहर संतोष राव (सं० 14333537 एन
अब जे० सी०—255811 पी)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार कल्याण प्रसाद सिगा महापतरा (सं० 14326868
एम अब जे० सी०—255812 एक्स)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार रुंदर सिंह (सं० 4053422 एल अब जे० सी०—
255813 एल)—01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० सावंत बालकृष्णा रंग राव (सं० 14312035
एक्स अब जे० सी०—255814 एच)—01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० राम नरेश शर्मा (सं० 1260652 एच
अब जे० सी०—255815 एल)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार बालाराम यादव (सं० 14321481 ए अब
जे० सी०—255816 एन)—01 जुलाई, 1993।

बी० एच० एम० जी० ईसाक (सं० 1268928 एच अब
जे० सी०—255817 डब्ल्यू)—31 अगस्त, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1993।)

हवलदार स्वामी मनोहर प्रभुलिंग (सं० 1263788 एक्स
अब जे० सी०—255818 वाई)—01 अगस्त, 1993।

सेना डाक सेवा कोर

हवलदार लिपिक से नायब सूबेदार लिपिक (पोस्टल)

गोविन्द राम (सं० 8020261 एम अब जे० सी०—
834025 एल)—25 जुलाई, 1993।*

पामु बुचैजा (सं० 2568036 एम अब जे० सी०—
834026 एच)—07 अगस्त, 1993।*

रोहतास कुमार (सं० 1047311 पी अब जे० सी०—
834027 एल)—25 जुलाई, 1993।*

अरुण कुमार बोस (सं० 9213588 एच अब जे० सी०—
834028 एन)—08 सितम्बर, 1993।*

कुन्ती रामन पी० वी० (सं० 14210722 ए अब जे०
सी०—834029 डब्ल्यू)—10 अगस्त, 1993।*

श्रीम प्रकाश (सं० 13809166 के अब जे० सी०—
834030 एल)—24 जुलाई, 1993।*

*(वेतन एवं भत्तों पर बिना किसी प्रभाव के नायब सूबेदार/
लिपिक (पोस्टल) के रैंक में 02 जनवरी, 1993 से
वरीयता प्रदान की जाती है।)

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शीश राम (जे० सी०—70897 एम)—1
जुलाई, 1993।

सूबेदार सल्लू राम त्रिपाठी (जे० सी०—100318
एम)—1 अगस्त, 1993।

सूबेदार हलीप सिंह (जे० सी०-111060 के)---
1 अगस्त, 1993।

सूबेदार मन्वेन्द्र कुमार नाथ (जे० सी०-111761 ए)---1 अगस्त, 1993।

सूबेदार दरबान सिंह (जे० सी०-111063 एकम्)---
1 अगस्त, 1993।

सूबेदार राम सेवक मिश्रा (जे० सी०-111065 एब)---
1 अगस्त, 1993।

सूबेदार हरनेक सिंह (जे० सी०-111064 ए)---
1 सितम्बर, 1993।

सूबेदार भरदार सिंह (जे० सी०-114244 एन)---
1 सितम्बर, 1993।

सूबेदार गंगा सहाय (जे० सी०-113790 एन)---
1 सितम्बर, 1993।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-139197 एम)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार राम चन्द्र टुंडु (जे० सी०-139189 एन)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जाटूतेकल रामन पिल्ले रामचन्द्रम
नाथर (जे० सी०-139170 पी)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बटा सिंह (जे० सी०-92994 के)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार आशा राम वर्मा (जे० सी०-138442 एफ)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कनिश्चान कन्डि राघवल (जे० सी०-
115647 ए)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार केवल सुष्ण ठडवाल (जे० सी०-
130781 एच)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह थापा (जे० सी०-123030
वाई)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार श्रीधर प्रसाद (जे० सी०-105814
एल)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह रावन (जे० सी०-101358
ए)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार थुरू राम (जे० सी०-114053 वाई)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जे० सी०-100230 एच)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार सुब्बा सिंह (जे० सी०-120147 एम)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बलवल्ल सिंह (जे० सी०-101966
एफ)---1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार धनीराम शर्मा (जे० सी०-103040
एफ)---1 जुलाई, 1993।

प्रकाश चन्द,
अवर सचिव

सं० 204, दिनांक 14 फरवरी, 1994--राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

निश्चित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बालाक्रिष्णन (जे० सी०-168793
एफ)---5 दिसम्बर, 1992।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-168794 के)---
1 मई, 1993।

नायब सूबेदार अवनार सिंह (जे० सी०-173738 पी)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार देवी सिंह (जे० सी०-152360 ए)---
1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र सिंह (जे० सी०-177521
एच)---1 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार जगत सिंह (जे० सी०-181418 पी)---
1 सितम्बर, 1993।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगवान दाम (जे० सी०-183675 एल)---
1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार मुखदेव सिंह (जे० सी०-183674
एच)---1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार नेतरगल शर्मा (जे० सी०-184132
एल)---1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार प्रशोत्तम चन्द (जे० सी०-184141
एम)---1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार गुरुवन्म राम (जे० सी०-184142 पी)---
1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार धरम चन्द (जे० सी०-189697 ए)---
1 अगस्त, 1993।

नाथब सूबेदार हरी चन्द (जे० सी०-194217 पी)---
1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार कल्याण सिंह (जे० सी०-164922
वाई)---1 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लाडू सिंह (जे० सी०-127114 के)---1
सितम्बर, 1993।

सूबेदार राठोर नारायण सिंह (जे० सी०-128477
ए)---1 सितम्बर, 1993।

सूबेदार रमेश राधकृष्णर (जे० सी०-130673
वाई)---1 सितम्बर, 1993।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कैलाश पति त्रिपाठी (जे० सी०-144196
एन)---1 नवम्बर, 1993।

सूबेदार के रैंक में

नाथब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-168732 के)---
1 सितम्बर, 1993।

नाथब सूबेदार बलराम सिंह (जे० सी०-157219
एन)---1 सितम्बर, 1993।

नाथब सूबेदार दर्शीप सिंह (जे० सी०-168734 पी)---
1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार सतेह सिंह (जे० सी०-162083 एन)---
1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार रामेश्वर लाल (जे० सी०-160839
के)---1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार गुलाब सिंह (जे० सी०-152362 एन)---
1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार छोटू सिंह (जे० सी०-157224 एन)---
1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार सुनील सिंह (जे० सी०-157241 एन)---
1 अक्टूबर, 1993।

नाथब सूबेदार शम्भू प्रसाद शर्मा (जे० सी०-183672
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

द० र० शर्मा,
अवर सचिव

सं० 205, दिनांक 10 फरवरी, 1994---र.पु.पति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

पी० ए० सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह (जे० सी०-
123878 एन)---1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मेजर रामाधर सिंह (जे० सी०-124942
के)---1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मेजर राम दास सिंह यादव (जे० सी०-
124726 डब्ल्यू)---1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मेजर श्रीराम गोबिले (जे० पी०-
123874 पी)---1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मेजर राम प्रताप मिश्रा (जे० सी०-
127942 पी)---1 दिसम्बर, 1993।

सूबेदार के रैंक में

पी० ए० सूबेदार कपिल देव ठाकुर (जे० सी०-183189
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार नेत राम कुष्णा (जे० सी०-183190
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बनि राम तिवारी (जे० सी०-183191
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राजेन्द्र कुमार आगाद (जे० सी०-
183192 एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गोपी नाथ (जे० सी०-183193
डब्ल्यू)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जगवंत सिंह (जे० सी०-183194
वाई)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शंकर सिंह (जे० सी०-183195
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सांवर मल (जे० सी०-183196
के)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शैताना राम गुजर (जे० सी०-185285
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हरचंन सिंह (जे० सी०-183197
एन)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शेख तंगेला साहेब (जे० सी०-183198
पी)---1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जे० सी०—183199
एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुखबीर सिंह चन्देले (जे० सी०—
183200 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार रमेश चन्द्र वर्मा (जे० सी०—183201
के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अम्बिका प्रसाद सिंह (जे० सी०—
183202 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हीरा बल्लभ (जे० सी०—183204
एक्स)—01 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार करुणगण करुण्यया (जे० सी०—
183205 ए)—01 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार नेटके नारायण गणपत राव (जे०
सी०—183206 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार इकबाल सिंह (जे० सी०—183207
एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार छोटे लाल जाटव (जे० सी०—156183
एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सज्जन सिंह (जे० सी०—167039
एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरेश चन्द्र विश्वकर्मा (जे० सी०—
183209 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मो० सलाउद्दीन (जे० सी०—183210
एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार रामफल (जे० सी०—183211 एन)—
1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बन्दन सिंह राठौर (जे० सी०—183213
वाई)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राजिन्द्र सिंह परमार (जे० सी०—
183217 पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बसवंत जानु जाधव (जे० सी०—
183218 एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जगदानन्द झा (जे० सी०—185286
के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बरभेश्वर नाथ पाण्डेय (जे० सी०—
185287 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार उदय चन्द्र नाथ (जे० सी०—185288
पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मोहम्मद अजमल लश्कर (जे०
सी०—185292 एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार कृष्ण दास (जे० सी०—187642
एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार रणजीत कुमार विश्वास (जे० सी०—
185297 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार नारायण चक्रवर्ती (जे० सी०—185298
वाई)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०—185299
एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हिमाशु कुमार नाथ (जे० सी०—
185300 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मुंशी सिंह (जे० सी०—185301 एन)—
1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सोराम मीना (जे० सी०—187644
एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार भैरों सिंह शेखावत (जे० सी०—
185302 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार श्याम लाल रावत (जे० सी०—185303
वाई)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जे० सी०—185304
एफ)—01 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार प्रदीप कुमार नाथ (जे० सी०—187645
एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अब्दुल गफ्फार (जे० सी०—185306
एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार नानी मोहन चक्रवर्ती (जे० सी०—
185307 पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शिवा राम यादवा (जे० सी०—
185308 एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार देवनिस सोरेंग (जे० सी०—185309
ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार परशोत्तम सिंह (जे० सी०—185310
पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार कलीकल थोमस अब्राहम (जे०
सी०—185311 एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शिव कुमार चव्हाण (जे० सी०—185312
ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार भीम सिंह कादयान (जे० सी०—
185313 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार विजय कुमार विश्वास (जे० सी०—158049 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार संतोष कुमार सिंह राठीर (जे० सी०—173402 पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मोहम्मद गौस मोहिदीन खान (जे० सी०—185316 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुशील प्रताप सिंह जाधेन (जे० सी०—185317 वाई)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अब्दुल खलील (जे० सी०—185318 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राम बीर सिंह (जे० सी०—185319 के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०—185321 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरेश चन्द्र श्रीवास (जे० सी०—185322 के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार रामश्रेय पाण्डेय (जे० सी०—185323 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अनिल कुमार (जे० सी०—185324 पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गुरदेव सिंह लाबरा (जे० सी०—185325 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार महुल कुमार तालुकवार (जे० सी०—185326 ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अजीत कुमार कश्यप (जे० सी०—185328 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार श्रीनिवास शर्मा (जे० सी०—185329 एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार दाऊद डुंग डुंग (जे० सी०—185330 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार दलीप कुमार (जे० सी०—185331 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार ब्रजेन चक्रवर्ती (जे० सी०—185332 एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार क्रिशन सिंह (जे० सी०—187648 वाई)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार दर्शन कुमार (जे० सी०—185333 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सकल प्रसाद (जे० सी०—185334 वाई)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अदित्य कुमार नामक (जे० सी०—185335 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बलजीत सिंह (जे० सी०—185337 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सरूप सिंह (जे० सी०—187649 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शिवा चरण राऊत (जे० सी०—185339 एकस)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जीवराज जांगिड़ (जे० सी०—185340 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार के रैंक में

पी० ए० सूबेदार बिष्णु देव सिंह (जे० सी०—183214 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गैबल भट्टाचार्य (जे० सी०—183216 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार दिलीप कुमार नाग (जे० सी०—185305 के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार पूर्ण सिंह सेनी (जे० सी०—185315 एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार श्रोम बहादुर राणा (जे० सी०—193071 ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार पी० समुद्र पाण्डियन (जे० सी०—187686 पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मुख्तार सिंह (जे० सी०—187692 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जनक मिश्रा (जे० सी०—193074 एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार विजयन नायर के० (जे० सी०—193095 के)—1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मन्किपत सिंह होथी (जे० सी०—193096 एम)—1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राम पाल सिंह (जे० सी०—193044 डब्ल्यू)—1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जवाहर झा (जे० सी०—193045 वाई)—1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार वरयास सिंह कपूर (जे० सी०-193046 एफ) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार संकठा राम यादव (जे० सी०-193047 के) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जे० सी०-193048 एम) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गोविन्दा पिल्लै के० (जे० सी०-195177 एल) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राज बल्लभ शर्मा (जे० सी०-193049 पी) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शिवरामा पीरप्पा हाक्गेरी (जे० सी०-193050 के) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बशीरुज्जमा बान (जे० सी०-193051 एम) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-193329 एच) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राम गोपाल (जे० सी०-193052 पी) —01 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शिवरामी रेड्डी मेट्टू (जे० सी०-193053 एक्स) —1 नवम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार करपुरु सिद्धमला राव (जे० सी०-193054 ए) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार कृष्ण लाल (जे० सी०-193055 एच) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार ध्रुव सिंह सलाधिया (जे० सी०-193056 एल) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बन्धुपाल सिंह (जे० सी०-193057 एन) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हरि चन्द शुक्ला (जे० सी०-193330 एक्स) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सोहन लाल खासा (जे० सी०-193059 वाई) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जिवानन्दा मुखर्जी (मुखोपाध्याय) (जे० सी०-193060 एन) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरेन्द्र प्रकाश (जे० सी०-193063 एफ) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार छतरपाल सिंह (जे० सी०-193064 के) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जयवीर सिंह (जे० सी०-193331 ए) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बृज मोहन सिंह सेंगर (जे० सी०-193066 पी) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बृजेन्द्र पाल सिंह (जे० सी०-193067 एक्स) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राम प्रकाश (जे० सी०-193069 एच) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार उदयनाथ मिश्रा (जे० सी०-193070 एक्स) —1 दिसम्बर, 1993।

पी० ए० सूबेदार रघु वंश नारायण सिंह (जे० सी०-185341 पी) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार दाता राम (जे० सी०-187650 डब्ल्यू) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राम केशव दुबे (जे० सी०-187651 वाई) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार महादेवन के० सी० (जे० सी०-187652 एफ) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (जे० सी०-193043 एन) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार चन्द्रेश्वर निवारी (जे० सी०-187653 के) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरेश चन्द्र द्विवेदी (जे० सी०-187654 एम) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान (जे० सी०-187655 पी) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार चरन सिंह वर्मा (जे० सी०-187656 एक्स) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जयपाल सिंह (जे० सी०-187658 एच) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार अमर पाल सिंह मामक (जे० सी०-187659 एल) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मदन सिंह (जे० सी०-187660 ए) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार आनन्द विहारी निवारी (जे० सी०-187662 एल) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बनारसी दास (जे० सी०-187663 एन) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हरीफल (जे० सी०-187665 वाई) —1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हरिशंकर राय (जे० सी०-173405 एफस)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गद्दे मृतुशीता राव (जे० सी०-185314 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गिरकर सिंह सिकरवार (जे० सी०-187666 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार देव कृष्णा क्षा (जे० सी०-187667 के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गुलशदत सिंह (जे० सी०-187674 ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार महादेव सिंह (जे० सी०-187675 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मूरज मन बोकन (जे० सी०-187676 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार तेजपाल नागर (जे० सी०-187677 एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०-187678 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बनी सिंह जाखड़ (जे० सी०-187680 एन)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार राज पाल (जे० सी०-187681 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार कुलन्देरवामी आरुमुगम (जे० सी०-187683 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार देवता प्रसाद पाण्डेय (जे० सी०-187685 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बृज लाल (जे० सी०-187687 एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार मुलागम सिंह (जे० सी०-187688 ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार लाल बहादुर सिंह (जे० सी०-187689 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार चरनजीत सिंह (जे० सी०-187691 ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार कुमार राधिकागंग्या शिवापूजीमठ (जे० सी०-187693 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार शंकर नरहरि मन्नाच्छर (जे० सी०-193073 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार रमेश कुमार शर्मा (जे० सी०-193076 बार्ड)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार जगमाल सिंह यावव (जे० सी०-193077 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरजन सिंह (जे० सी०-193079 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गोपाल चरन स्वेन (जे० सी०-193080 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सत्य प्रकाश (जे० सी०-193081 के)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बी०के० अप्पय्य (जे० सी०-193082 एम)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार नन्द लाल जखवाल (जे० सी०-193083 पी)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार हरदीप सिंह सन्धू (जे० सी०-193084 एक्स)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार ईश्वर चन्द (जे० सी०-193085 ए)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार भंवर सिंह राठौर (जे० सी०-193086 एच)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जे० सी०-193087 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार महादेवप्पा बसवणप्पा बाणाकर (जे० सी०-193089 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार गुरबक्षण सिंह (जे० सी०-193090 एल)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार सुनील रंजन दास (जे० सी०-193093 बार्ड)—1 अक्टूबर, 1993।

पी० ए० सूबेदार बहादुर सिंह चौहान (जे० सी०-193094 एफ)—1 अक्टूबर, 1993।

बलबीर सिंह,
अवर सचिव

सं० 206, दिनांक 31 जनवरी 1994—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

इन्फैंट्री

119 इन्फैंट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मनी चन्द मिह्रा (टी० जे० 2733)—
01 फरवरी, 1994।

120 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जैराम राम (टी० जे०-3067)--01
जून 1993।

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद यादव (टी० जे०-3068)--
01 जून, 1993।

नायब सूबेदार मकरध्वज बेहरा (टी० जे०-3371)--
01 जून, 1993।

नायब सूबेदार हरे कृष्ण नायक (टी० जे०-3372)--01
जून, 1993।

101 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रा० से०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सटायद मुबारक बाबू लाल (सं० 10118647
अब टी० जे०-3854)--01 नवम्बर 1993।

हवलदार बालिकर चन्द्रशेखर (सं० 10118916 अब टी०
जे०-3855)--01 नवम्बर 1993।

111 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरपाल सिंह (सं० 10181416 अब टी० जे०
3856)--01 दिसम्बर 1993।

हवलदार प्रह्लाद दास पटेल (सं० 10181448 अब टी०
जे०-3857)--01 दिसम्बर 1993।

109 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रा० से०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गणपत राव घोडके (सं० 10149665 अब टी०
जे०-3858)--01 जनवरी 1994 से।

हवलदार मनोहर शिवापा दड्डीकर (सं० 10149733
अब टी० जे०-3859)--01 जनवरी 1994 से।

हवलदार मोरे लक्ष्मण अप्पा (सं० 10146443 अब
टी० जे०-3860)--01 जनवरी 1994 से।

के० कुमार

ले० कर्नल

जी० एस० ओ०-1/टी० ए०-3

(नौसेना शाखा)

सं० 207, दिनांक 31 जनवरी 1994--निम्नलिखित
कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I को नाम के सामने दिये गये दिनांक

से सिविलियन गजेटेड आफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता
है :-

श्री ए० बेंकटेश्वर राव --11 अक्टूबर 1993 (पूर्वाह्न)।

श्री ए० ई० मेहर--09 नवम्बर 1993 (पूर्वाह्न)।

श्रीमती वी० एस० पाराडकर --05 नवम्बर 1993
(पूर्वाह्न)।

2. वे दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे।

निम्नलिखित सीनियर फोरमैन आफ स्टोर्स को उनके नाम के
सामने दिये गये दिनांक से सहायक नौसेना भण्डार अधिकारी के
पद पर नियुक्त किया जाता है :-

श्री पी० सी० मुथुकुट्टी--09 अक्टूबर 1993 (पूर्वाह्न)।

श्री गुलशन खान--24 सितम्बर 1993 (पूर्वाह्न)।

श्री पी० एल० सोलंकी--23 सितम्बर 1993 (पूर्वाह्न)।

2. वे दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे।

यू० एन० खन्ना

उप निदेशक सिविलियन कामिक

नेबी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं० 208, दिनांक 27 जनवरी 1994--श्री पी० जे०
रामटेक, बरिष्ठ अनुवादक को दिनांक 30 अगस्त, 1993 से
पदोन्नति हो जाने पर स्थानापन्न अनुवाद अधिकारी (ह
“ख”-राजपत्रित) नियुक्त किया जाता है।

पी० एन० मौलिक

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

तटरक्षक

सं० 209, दिनांक 15 फरवरी, 1994--राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

सामान्य ड्यूटी

उप महानिदेशक यशपाल मलिक (0081 जे)--01
दिसम्बर, 1993 से कार्यकारी महानिरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)
के रैंक में पदोन्नत किए गए।

सहा० कमांडेंट एन० वी० रामाराव (0175 वी)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में
पदोन्नत किए गए।

सहा० कमांडेंट उधल सिंह (0168 ई)--07 दिसम्बर,
1993 से उप कमांडेंट (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में पदोन्नत किए
गए।

तकनीकी ड्यूटी

सहा० कमांडेंट आर० के० सिवल (4031 एम)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत
किए गए।

डेंट एम० बालिया (5016 एक्स)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत
किए गए।

सहा० कमांडेंट एच० के० गर्मा (5017 सी)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत
किए गए।

सहा० कमांडेंट पी० आर० रामदाम (4032 एम)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत
किये गये।

सहा० कमांडेंट एम० शेरपाल (5018 डी)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदो-
न्नत किये गये।

सहा० कमांडेंट एम० शाहिद (4033 पी)--07 दिसम्बर,
1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत किये
गये।

सहा० कमांडेंट एन चक्रवर्ती (4035 एम)--07 दिसम्बर,
1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत किये
गये।

सहा० कमांडेंट जी० सठी (4034 यथू)--07 दिसम्बर,
1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में पदोन्नत किये
गये।

सहा० कमांडेंट एम० डी० पाटिल (5019 ई)--07
दिसम्बर, 1993 से उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में
पदोन्नत किये गये।

धाबू चेरियन
डेस्क अफसर

गुणवत्ता आशवासन महानिदेशालय

सं० 210, दिनांक 2 फरवरी, 1994--निवर्तन आयु
को प्राप्त होने पर, निम्नलिखित अधिकारी/व्यक्तिक सहायक
दिनांक 31 जनवरी, 1994 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त तथा
दिनांक 1 फरवरी, 1994 से पेंशन स्थापना में स्थाना-
तरित :—

श्री मोहिन्दर सिंह, सहायक सिविलियन स्टाफ अधि-
कारी।

श्री हरीश चन्द्र साहू, सहायक सिविलियन स्टाफ अधि-
कारी।

श्री कस्तूरी लाल, वैयक्तिक सहायक।

पी० एन० मौलिक
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 211, दिनांक 10 फरवरी, 1994--राष्ट्रपति
निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई
तारीख से उनके सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर
लेने से पूर्व ही व्यक्तिगत कारणों से उनके ही अनुरोध पर
रक्षा सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कर्मीशन

(आई० सी०-14264) कर्नल जी० के० श्रीनिवासन,
इन्फैंट्री--31 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-14399) ले० कर्नल वी० एम० प्रधान,
इन्फैंट्री--31 मई, 1993 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16163) ले० कर्नल एन० पी० नन्दा, इन्फैंट्री
--31 मार्च, 1991 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16734) ले० कर्नल (टी० एस०) एम०
एस० सिवाल, ई० एम० ई०--15 दिसम्बर, 1993 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16965) कर्नल योगेश गुप्ता, ए० थ्रो०
सी०--04 जनवरी, 1993 (अपराह्न)।

(आई० सी०-17487) ले० कर्नल (टी० एस०) वी० के०
सागर, ए० सी०--31 अगस्त, 1993 (अपराह्न)।

(आई० सी०-17879) ले० कर्नल काशी नाथ अतरे,
ई० एम० ई०--04 जनवरी, 1993 (अपराह्न)।

(आई० सी०-18053) ले० कर्नल एच० एम० त्रिपाठी,
इन्फैंट्री--30 जून, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-18189) ले० कर्नल (टी० एस०) बी० एम०
थापा, इंजीनियर्स--31 मार्च, 1992 (अपराह्न)।

(आई० वी०-19341) ले० कर्नल (टी० एस०) डी० के०
राय, ई० एम० ई०--16 जनवरी, 1993 (अपराह्न)।

(आई० सी०-19359) ले० कर्नल (टी० एस०) जगमोहन
मिह, इंजीनियर्स--20 जुलाई, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-19514), ले० कर्नल (टी० एस०) हरजीत
सिंह, ए० सी०--18 मई, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-21465) ले० कर्नल एम० पी० एस०
आहलूवालिया, आर्टिलरी--18 मई, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-22135) कर्नल ए० एस० गिल, एस० एम०,
इन्फैंट्री--03 दिसम्बर, 1990 (अपराह्न)।

- (आई० सी०-23556) ले० कर्नल नरेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स—27 मई, 1991 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-23700) कर्नल एच० एस० मान, आर्टिलरी—30 जून, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-23715) ले० कर्नल (टी० एस०) सुमन्त भाटिया, इंजीनियर्स—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-23969) ले० कर्नल (टी० एस०) बी० एस० रेखी, आर्टिलरी—25 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24135) ले० कर्नल ए० के० सान्गी, इंजीनियर्स—11 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24303) ले० कर्नल (टी० एस०) जी० एल० ककर, आर्टिलरी—27 मई, 1992 (पूर्वाह्न) ।
- (आई० सी०-24463) ले० कर्नल (टी० एस०) एस० रानन, ई० एम० ई०—25 मार्च, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24486) मेजर वृज लाल देबनाथ, इंजीनियर्स—24 अक्टूबर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24500) ले० कर्नल सतीश चन्द्र, ई० एम० ई०—12 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24553) ले० कर्नल अरूण कुलकर्णी, सिग्नलस—20 नवम्बर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24791) ले० कर्नल जी० एस० ओबराय, इंजीनियर्स—15 अगस्त, 1991 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-25285) मेजर राधे मोहन सिंह, ई० एम० ई०—10 सितम्बर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-25310) मेजर जी० एस० ग्रेवाल, इंजीनियर—12 दिसम्बर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-25789) ले० कर्नल एस० आर० चौधरी, इंजीनियर—04 नवम्बर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-25968) ले० कर्नल के० वी० एस० थादव, आर्टिलरी—17 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-29571) ले० कर्नल (टी० एस०) के० जे० एस० वोहरा, ई० एम० ई०—01 नवम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) ।
- (आई० सी०-26002) ले० कर्नल कुलदीप सिंह, ए० सी०—28 दिसम्बर, 1992 (पूर्वाह्न) ।
- (आई० सी०-26294) मेजर आर० के० ग्रोवर, इंजीनियर—26 मई, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-26522) ले० कर्नल एस० आर० कपाही, ई० एम० ई०—18 जनवरी, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-26707), ले० कर्नल (टी० एस०) सुधीर कुमार, इंजीनियर—26 मई, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-26842) ले० कर्नल के० एल० मोंगा, इंजीनियर—17 फरवरी, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-27848) मेजर के० एस० भटनागर, ई० एम० ई०—30 सितम्बर, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-27907) मेजर सुरिन्द्र बीर, ई० एम० ई०—07 अक्टूबर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-28166) ले० कर्नल (टी० एस०) जाय जार्ज, आर्टिलरी—27 जुलाई, 1993 (पूर्वाह्न) ।
- (आई० सी०-30620) मेजर सी० जे० अन्नुरम, ई० एम० ई०—03 नवम्बर, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-31921) मेजर सी० एम० भाण्डो, ई० एम० ई०—17 फरवरी, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-32002) मेजर एन० के० सरूप, ए० सी०—30 जून, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-32308) ले० कर्नल (टी० एस०) जे० एस० साहनी, आर्टिलरी—30 सितम्बर, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-32484) मेजर डी० के० शर्मा, ई० एम० ई०—26 अक्टूबर, 1993 (पूर्वाह्न) ।
- (आई० सी०-32619) ले० कर्नल (टी० एस०) चन्द्र प्रकाश, सिग्नलस—17 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-32662) मेजर एच० वी० भूटानी, इंजीनियर—30 नवम्बर, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-32717) मेजर एस० एस० सिद्धू, ए० सी०—04 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-35211) मेजर अनिल सभरवाल, ए० सी०—14 अक्टूबर, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-15107) ले० कर्नल हेत सिंह इंजीनियर्स—31 मई, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-17109) मेजर ए० के० पुरी, सिग्नलस—17 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-19757) ले० कर्नल (टी० एस०) अशोक कुमार, इंजीनियर्स—17 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-19758) ले० कर्नल पी० आर० एस० नायर, इंजीनियर्स—31 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-23683) मेजर एच० एस० चीमा, इंजीनियर्स—05 सितम्बर, 1993 (अपराह्न) ।
- (आई० सी०-24100) मेजर तुका राम यादव, सिग्नलस—20 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24762) ले० कर्नल (टी० एस०) आर० ए० मलिक, इंजीनियर्स—30 जून, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25011) मेजर पी० सी० थामस, इंजीनियर्स—30 मई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25228) ले० कर्नल जी० एस० गिल, इंजीनियर्स—16 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25769) मेजर जे० एम० देसाई, इंजीनियर्स—11 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-26241) ले० कर्नल (टी० एस०) एम० ए० खान, इंजीनियर्स—26 मई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-26311) ले० कर्नल एम० के० घई, इंजीनियर्स—31 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27190) ले० कर्नल (टी० एस०) जे० एस० डबास, इंजीनियर्स—17 अगस्त, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27266) मेजर आर० बी० पाटिल, इंजीनियर्स—02 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27898) ले० कर्नल शैलेश कुमार, सिगनल्स—20 जून, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27912) ले० कर्नल (टी० एस०) ए० के० सरवाल, सिगनल्स—15 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28012) ले० कर्नल (टी० एस०) एस० जे० मलिक, सिगनल्स—20 मार्च, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29748) ले० कर्नल (टी० एस०) बी० एम० मुशप्पा, इंजीनियर्स—25 मई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-30310) मेजर एन० सी० वाटवे, सिगनल्स—15 जून, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-30676) मेजर सी० एन० आनन्द, इंजीनियर्स—25 मई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32708) ले० कर्नल (टी० एस०) वी० डी० त्यागी, इंजीनियर्स—26 मई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-33115) मेजर एस० आर० नारायणन, सिगनल्स—28 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-33194) मेजर पी० एम० मणि, आर्टिलरी—18 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-33322) मेजर के० एस० सिद्धू, आरमड—16 अगस्त, 1993 (पूर्वाह्न) ।

(आई० सी०-35676) मेजर डी० एस० मनोहर, सिगनल्स—15 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-36111) मेजर एस० सेनगुप्ता, ई० एम० ई०—15 मार्च, 1993 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-38468) मेजर डी० डी० चुन्दावत, आरमड—17 फरवरी, 1993 (अपराह्न) ।

वी० के० आनन्द
कर्नल

एम० एस० (आर० एंड आर०)

बिद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी कोर

सं० 212, दिनांक 11 फरवरी, 1994—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दिए हुए दिनांक से निर्धारित समय पर सेवा निवृत्त हुए :—

बर्कशाप अधिकारी ग्रुप 'बी', श्री जय सिंह—01 जनवरी, 1994 (पूर्वाह्न) ।

निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दिए गए दिनांक से निर्धारित समय पर सेवा निवृत्त हुए :—

ई० एम० ई० अधिकारी (सिविलियन), श्री वाई० बी० के शास्त्री—31 दिसम्बर, 1993 (अपराह्न) ।

वी० के० प्रभाकरन
ले० कर्नल
संयुक्त निदेशक ई० एम० ई० (सिब०)

सेना शाखा

(सैनिक अभियंता सेवा)

सं० 213, दिनांक 8 फरवरी, 1994—एम० ई० एस०-450471 श्री रमेश चन्दर डायर, अधीक्षक अभियंता (प्रवरण श्रेणी) दिनांक 31 जनवरी, 1994 (अपराह्न) से स्वच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं ।

किरण कोछड़
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGN.

New Delhi, the 19th March 1994

No. 186, dated the 2nd February 1994.—The President is pleased to make the following appointments:—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Dr. T. Srinivasan, Scientist 'C' (ad-hoc) of Solidstate Physics Laboratory, Delhi to be temporary Scientist 'C' in the same laboratory with effect from 26-02-1993 (F/N). He will be on probation for a period of one year.

Dr. V. S. Battachar Scientist 'C' (Ad-hoc), Gas Turbine Research Establishment, Bangalore to be temporary Scientist 'C' in the same Establishment on probation for a period of one year with effect from 27-5-1993 (F/N).

Mrs Anjali Bhatia to be temporary Scientist 'C' in Defence Laboratory, Jodhpur on probation for a period of one year with effect from 26-07-1990 (F/N).

D. J. ANDREW,
Assistant Director (Personnel)

No. 187, dated 20th January 1994.—The President is pleased to make the following appointments:—

2. The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishments and with effect from the dates shown against their names:—

Name, Estt. and Date

Shri Sanjay Saxena, RTO, Nasik—24-9-1993 (F/N).

Shri V. V. Nagendra Kumar, RTO, Nasik—30-9-1993 (F/N).

Shri Bharat Singh Mandloi RTO, Nasik—17-12-1993 (F/N).

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishments and with effect from the dates shown against their names:—

Name, Estt. and Date

Miss Chandrika Kaushik, DP & RM, R&D HQrs, New Delhi—12-09-1991 (F/N).

Miss Anita Puri, Dte. of MPD R&D HQrs, New Delhi—10-8-1992 (F/N).

Miss Kavita Chandel, DSC, Delhi—18-9-1992 (F/N).

Miss Sanchita Khanduja, Dte of Armaments, R&D HQrs, New Delhi—18-11-1993 (F/N).

R. K. SHARMA,
Asstt. Director (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 188, dated 16th February 1994.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned are granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt w.e.f. 12 Jun 1993 under the terms and conditions of SAI 4/S/67. They are also granted two years ante-date of seniority for pay and promotions

from 12 June 1991 under SAI 4/S/67 as amended and are promoted to the rank of Lt w.e.f. 12 June 1993:—

Rominder Singh BHASIN (IC-52276L) Engrs, Rajendra Kumar (IC-52278W) Engrs, Aman KANSAL (IC-52279Y) Engrs, Naveen Kumar (IC-52280N) EME, Vipin TRIVEDI (IC-52281W) Engrs, Ajay Narayan YADAV (IC-52282Y) Engrs, Surender Singh JAGLAN (IC-52283F) EME, Arvind Kumar GUPTA (IC-52284K) EME, Shivendra Kumar (IC-52285M) EME, Monish Dass (IC-52286P) Engrs, Sumit SHEORAN (IC-52287X) Sigs, Pawan PANDEY (IC-52288A) Engrs, PATWARDHAN Dilip Ganesh (IC-52289H) Engrs, Virinder Singh JEJI (IC-52290X) Engrs, Owen Xavier REBELLO (IC-52291A) Sigs, Sandeep Kumar ARORA (IC-52292H) Engrs, Gursimrat Singh (IC-52293L) Engrs, BHAT Rajesh Ramachandra (IC-52295W) Engrs, Savandhi S Jyothirlingam (IC-52296Y) EME, Sujit Kumar MUKHERJEE (IC-52297 F) Engrs, CHETTY Sundeeep Bal Krishna (IC-52300 W) EME, Jatinder Singh (IC-52301Y) Engrs, Abninder Pal Singh (IC-52302F) EME, THAKER Samir Kanubhai (IC-52303K) EME, Paramanand Kumar (IC-52304M) Engrs, K Ravishankar (IC-52306X) Engrs, Prem Kumar D (IC-52307A) Sigs, Radhakrishna Shibu IV (IC-52308H) Sigs, Prakash MURTHY R (IC-52309L) Sigs, Padmanabhan Ganesh (IC-52310A) EME, LOUREMBAM Jiten Singh (IC-52312L) Engrs, Navjot Singh SIDHU (IC-52313N) EME, Mukul MANKU (IC-52314W) Engrs, Vaddiraju Sunil Kumar (IC-52315Y) EME, Bishwajeet CHOUBEY (IC-52316F) Engrs, Vishwa Mohan Kumar (IC-52317K) EME, Aleemullah Khan JANBAZ (IC-52318M) Engrs, Anil Kumar MAURYA (IC-52319P) Engrs, Ravi Kant SHARMA (IC-52320K) Engrs, RUMALE Niteenkumar Pandurang (IC-52321M) EME, Achyut SINGHAL (IC-52322P) Engrs, Ravi CHUGH (IC-52324A) Engrs, C Suresh (IC-52325H) EME, Sandeep Kumar SINGHAL (IC-52326L) Engrs, Jagadeesh Chandran R (IC-52327N) EME, Pradeep Kumar C (IC-52328W) EME, Ajay MATHUR (IC-52329Y) EME, Manu CHAUDHARY (IC-52330N) Engrs, Jagadish Prabhu KP (IC-52332Y) EME, Sanjeev Roy TALWAR (IC-52333F) Engrs, Sanjeev SHRI-VASTAVA (IC-52334K) EME, Prabhakar Kumar Singh (IC-52335M) Sigs, Ranjiv Singh SAINI (IC-52336P) Sigs, Nitin Vijay BUCHE (IC-52337X) EME, N Mangalesh (IC-52338A) Engrs, Sudesh Kumar SINHA (IC-52339H) Engrs, Manoranjan DAS (IC-52340X) Engrs, Prahlad KULKARNI (IC-52341A) Engrs, Harinath K (IC-52342H) Engrs, Alex CYRIAC (IC-52343L) Engrs.

2. The undermentioned are also granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt w.e.f. 12 Jun 1993 under the terms and conditions of AI 105/61:—

Avnish Kumar TYAGI (IC-52275H) AEC, Tamojeet BISWAS (IC-52299M) AEC, Vikas Mohan (IC-52323 X) AEC.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(On probation)

The undermentioned are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy in the rank of 2/Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 4/S/67:—

Paramanand Kumar (SS-35418F) Engrs, 23 Jul 1992.

Sanjeev Roy TALWAR (SS-35419K) Engrs, 23 Jul 1992.

BHAT Rajesh Ramachandra (SS-35420Y) Engrs, 23 Jul 1992.

Manu CHAUDHARY (SS-35421F) Engrs, 23 Jul 1992.	Abninder Pal Singh (SS-35462L) EME, 23 Jul 1992.
Sudesh Kumar SINHA (SS-35422K) Engrs, 23 Jul 1992.	Jagadeesh Chandran R (SS-35463N) EME, 23 Jul 1992.
Sujit Kumar MUKHERJEE (SS-35423M) Engrs, 23 Jul 1992.	Sujeet KARMAKAR (SS-35464W) EME, 23 Jul 1992.
Gursimrat Singh (SS-35425X) Engrs, 24 Jul 1992.	THAKER Samir Kanubhai (SS-35465Y) EME, 23 Jul 1992.
Bishwajeet CHOUBEY (SS-35426A) Engrs, 23 Jul 1992.	N Mangalesh (SS-35466F) EME, 23 Jul 1992.
Anil Kumar MAURYA (SS-35428L) Engrs, 23 Jul 1992.	Rominder Singh BHASIN (SS-35467K) EME, 23 Jul 1992.
Harinath K (SS-35429N) Engrs, 23 Jul 1992.	C Suresh (SS-35468M) EME, 23 Jul 1992.
MULUKUTLA Ravi Kumar (SS-35430H) Engrs, 23 Jul 1992.	Shivendra Kumar (SS-35469P) EME, 23 Jul 1992.
Mukul MANKU (SS-35431L) Engrs, 23 Jul 1992.	Pradeep Kumar C (SS-35470K) EME, 23 Jul 1992.
Prahlad KULKARNI (SS-35432N) Engrs, 23 Jul 1992.	Pankaj JHA (SS-35471M) EME, 23 Jul 1992.
PATWARDHAN Dilip Ganesh (SS-35433W) Engrs, 23 Jul 1992.	Padmanabhan Ganesh (SS-35473X) EME, 23 Jul 1992.
Alex CYRIAC (SS-35435F) Engrs, 23 Jul 1992.	Ajay Narayan YADAV (SS-35474A) EME, 23 Jul 1992.
Achyut SINGHAL (SS-35436K) Engrs, 23 Jul 1992.	LOUREMBAM Jiten Singh (SS-35475H) EME, 23 Jul 1992.
Manoranjan Das (SS-35437M) Engrs, 23 Jul 1992.	Naveen Kumar (SS-35477N) Engrs, 23 Jul 1992.
P Einstein Sagar Lal (SS-35439X) Engrs, 23 Jul 1992.	Prabhakar Kumar Singh (SS-35479Y) Sigs, 23 Jul 1992.
Ravi Kant SHARMA (SS-35440M) Engrs, 23 Jul 1992.	Prem Kumar D (SS-35483F) Sigs, 23 Jul 1992.
Aman KANSAL (SS-35441P) Engrs, 23 Jul 1992.	Ranjiv Singh SAINI (SS-35484K) Sigs, 23 Jul 1992.
Sandeep Kumar SINGHAL (SS-35442X) Engrs, 23 Jul 1992.	Owen Xavier REBELLO (SS-35486P) Sigs, 23 Jul 1992.
BARHAT Upeshkumar Manhardan (SS-35443A) Engrs, 23 Jul 1992.	Sumit SHEORAN (SS-35487X) Sigs, 23 Jul 1992.
Vipin TRIVEDI (SS-35444H) Engrs, 23 Jul 1992.	Prakash Murthy R (SS-35488A) Sigs, 23 Jul 1992.
Pawan PANDEY (SS-35445L) Engrs, 23 Jul 1992.	Radhakrishna Shibu IV (SS-35490X) Sigs, 23 Jul 1992.
Aleemullah Khan JANBAZ (SS-35446N) Engrs, 23 Jul 1992.	Virinder Singh JEJI (SS-35491A) Engrs, 23 Jul 1992.
K Ravishankar (SS-35447W) Engrs, 23 Jul 1992.	Chetty Sundeeep Balkrishna (SS-35492H) EME, 23 Jul 1992.
Sandeep Kumar ARORA (SS-35448Y) Engrs, 23 Jul 1992.	Ajay Mathur (SS-35495W) EME, 23 Jul 1992.
Rajendra Kumar (SS-35449W) Engrs, 23 Jul 1992.	Vishwa Mohan Kumar (SS-35496Y) EME, 25 Jul 1992.
Jagdish Prabhu KP (SS-35452F) EME, 23 Jul 1992.	Nitin Vijay Buche (SS-35497F) EME, 30 Sep 1992.
Savandhi S Jyothirlingam (SS-35453K) EME, 23 Jul 1992.	Monish Dass (SS-35498K) Engrs, 16 Oct 1992.
Arvind Kumar Gupta (SS-35454M) EME, 23 Jul 1992.	
Suren/er Singh JAGIAN (SS-35456X) EME, 23 Jul 1992.	
Vaddiraju Sunil Kumar (SS-35459L) EME, 23 Jul 1992.	
Navjot Singh SIDHU (SS-35460A) EME, 23 Jul 1992.	
RUMALE Niteen Kumar Pandurang (SS-35461H) EME, 23 Jul 1992.	

SHORT SERVICE COMMISSION

To be 2/Lts

The undermentioned are granted Short Service Commission (after probation for six months) for a period of 5 years with effect from 06 Mar 93 under the provisions of Special Army Instruction 11 of 64 as amended. Their Short Service Commission (on probation) is Confirmed from the same date consequent on completion of the probationary period :—

Sandeep Chahal (SS-35500W) Engrs with seniority above 2/Lt Vijay Kumar (CSS-35501Y) Inf, Sunil Dutt Upadhyay (SS-35531W) Arty with seniority next below 2/Lt Kamenei Karun Kumar (SS-35530W) Arty, Rajesh Yadav (SS-35541A)

ASC with seniority next below 2/Lt Harendra Singh Chouban (SS-35540X) Inf, Anoop Bhatt (SS-35582K) AOC with seniority next below 2/Lt Rakesh Sharma (SS-35581F) Engrs, Anupam Joshi (SS-35589N) Engrs with seniority next below 2/Lt Harishwar Singh (SS-35588L) Arty, Rajneesh Sarma (SS-35602M) AC, Manjeet Singh (SS-35603P) ASC and Menon Vinit Mukund (SS-35604X) Inf with seniority below 2/Lt Sudhir Praneet Sharma (SS-35601K) Inf whose names appeared in the Gazette of India Notification dated 25 Dec 93.

A K BAKSHI, Lt Col
AMS 8B

No. 189, dated 4th February 1994.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of AI 3/S/70 :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt w.e.f. 29 Aug 86 with seniority for promotion from 27 Apr 82 but for increments of pay from 29 Aug 81 on relinquishing their SSC w.e.f. 29 Aug 86. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in the GN for grant of SSC. By virtue of their seniority they are promoted to the rank of Lt w.e.f. 29 Aug 86 with seniority in that rank from 27 Apr 84 :—

Avtar Singh (SS-30818 now IC-37886A), Sigs.

Manjeet Singh (SS-30842 now IC-37994K), AC.

Shiromani Singh Kushwaha (SS-30866 now IC-37910L), Inf.

VK ANAND, Col
Col MS/R&R

NAVY BRANCH

No. 190, dated 8th February 1994.—The President is pleased to make the following appointment in the Education Branch under the Ministry of Defence letter No. OF/1401/NHQ/2110(ii)/US/D (N-II) dated 03 Nov 92 from the date shown against his name :—

INDIAN NAVY

(PERMANENT COMMISSION)

EDUCATION BRANCH

Name, Type of Commission, Personal Number and Date of Commission

Goel Pramod, PC 70344-Y, 12-08-91.

SK DEORAS, Cdr
DDMPR (R&R)

COAST GUARD

No. 191, dated 8th February 1994.—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions/Retirements :—

APPOINTMENT

Sh. G Venu Madhan (0352X), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 09-07-93.

Sh. G John Victor (0353C), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 10-07-93.

Sh. Francis Paul (0354D), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 10-07-93.

Sh. Manoranjan Srivastava (0355E), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 10-07-93.

Sh. Satyaranjan Dash (0356J), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 11-07-93.

Sh. Hemant Kumar Ahuja (0357-L), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 11-07-93.

Sh. Deepak Raj Sharma (0358M), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 11-07-93.

Sh. Kinlay Bhutia (0359P), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 11-07-93.

Sh. Sidharth Sudhir Sood (0360Q), Appointed as Asst Comdt (GD) on probation for 2 years w.e.f. 11-07-93.

PROMOTIONS

U/Adh K Singh (00741T), Appointed on promotion as Asst Comdt (GD) and placed on probation for 2 years w.e.f. 17-09-93 and allotted Personal No. 0361-S.

U/Adh KC Sharma (00579S), Appointed on promotion as Asst Comdt (GD) and placed on probation for 2 years w.e.f. 17-09-93 & allotted Personal No. 0362-V.

P/Adh Atma Singh (00971M), Appointed on promotion as Asst Comdt (GD) and placed on probation for 2 years w.e.f. 17-09-93 & allotted Personal No. 0363-X.

BABU CHERIAN,
Desk Officer

AIR HEADQUARTERS

No. 192, dated the 10th January, 1994.—Shri Reoti Prasad, ACSO of AFHQ Civil Service is appointed as Civilian Staff Officer under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules 1968 for the period from 09 Dec 93 (F/N) to 24 Apr 1994 (A/N) or till regular incumbent becomes available whichever is earlier.

2. His appointment is made purely as top gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

PN MAULIK, Dy. Chief Administrative Officer.

AIR BRANCH

No. 193, dated the 7th February 1993.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned in the rank of Pilot Officer under the provisions of AFIs 20/76, 28/76, and AFI (Corrigendum) 7/78 and 13/81.

ADMINISTRATIVE BRANCH

(Ex-Airmen to be Pilot Officers)

Naresh Chander SHARMA (22206), Prabhakar ZOLA (22207), Ashok Kumar SHARMA (22219), Bharat KUMAR (22220) w.e.f. 19 Dec 92.

LOGISTICS BRANCH

(Ex-Airmen to be Pilot Officers)

S Venkatasubramanian (22230) with effect from 19 Dec 1992.

ACCOUNTS BRANCH

(Ex-Airmen to be Pilot Officers)

Gopakumar Ayyappan NAIR (22251) and Mandadi SBN-GATAH (22254) with effect from 19 Dec 1992.

The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned under the provisions of para 9 of AFI 48/75 as amended vide AFIs 5/81, 11/81, 5/82 and 2/91.

INDIAN AIR FORCE

(Ex-Airmen to be Fg Offrs with two years ante-date for purpose of Pay only)

ADMINISTRATIVE BRANCH

Pijush Kanti DATTA (22300), Brij Lal KALIA (22301), Karthick Chandra BISWAS (22302), Ashok Kumar SHARMA (22303), Vinod Kumar SHARMA (22304), Vasu DEV (22313), Roshanlal SHARMA (22314), Laxman Datt PANDEY (22315), Rambriksha SINGH (22316) and Mumtaz ALI (22319) wef 06 Feb 93.

ACCOUNTS BRANCH

Sivanagasundaram Karthikeyan SELVAN (22326) wef 06 Feb 1993.

METEOROLOGICAL BRANCH

Rabindra SHAHI (22329) wef 06 Feb 93.

S BASU Sqn Ldr
ADPO3 (D).

No. 194, dated the 28th January 1994.—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned in the rank of Pilot Officer under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. R-4(I)/89/D(Air-III) dated 13 Jul 90 with effect from 11 Sep 1993. These officers will be eligible for the grant of Flying Pay from the date of grant of Provisional Short Service Commission i.e. 11 Sep 93.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

(Ex-Flt Cds to be Pilot Officers)

A Ramanababu (22664), Bhanwar Singh DALAL (22665), Pankaj Kumar SRIVASTAVA (22666), Mudit DIKSHIT (22667), S LAKSHMAN (22668), Beatty TONY (22672), Rajneesh GANDHI (22670), Jaspreet Singh BINDRA (22671), Rajesh SHARMA (22672), Gopinathan ASWANIKUMAR (22673), Barjinder Pal SINGH (22674), and Antony JOSEPH RENTO (22675) wef 11 Sep 93.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned in the rank of Pilot Officer under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. R-4(I)/89/D(Air-III) dated 13 Jul 1990 with effect from 14 Aug 92. These officers are eligible for the grant of Flying Pay from the date of grant of Provisional Short Service Commission i.e. 14 Aug 92.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

(Ex-Airman to be Pilot Officer)

Sunil Kumar DAS (22002) wef 14 Aug 92.

HB SHARMA, Sqn Ldr ADPO3 (D).

No. 195, dated the 7th February 1994.—The President is pleased to terminate Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned and grant them Short Service Commission with effect from 10 Jun 92 in the Administrative (Air Traffic Controller) Branch of the IAF in the rank of Pilot Officer under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. 4(4)/90/D(Air-III) dated 18 Jul 91.

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE (AIR TRAFFIC CONTROLLER) BRANCH

Sivadasan BAVUKKADAN (21921), Koushik BANDOPADHYAYA (21922), Dinesh Kumar SINGH (21927), Sanjeev Kumar SINGH (21930), Davinder Singh MALIK (21931), Probir Nityaranjan DAS (21936), Ramiah SARAVANAN (21937), Santosh Kumar DHYANI (21938), Rajeev Kumar JHA (21939), Girish RAO (21940), Udananarao SRINATH (21942), V George KOSHY (21943), Vinod Kumar PATHAK (21946), Muthuvenkatesan NAGARAJAN (21948), Akash Deep MATHUR (21949), Manoj Kumar GOGOI (21950), Kondapally Sai SUMAN (21951), Kozhipurath VENUGOPAL (21952), Ajay Kumar PANDEY (21953), Anant Prabhakar WADI (21954), Manoj MEHTA (21957), Harendra SINGH (21958), Ananth GADEPALLI (21959), Inderjeet Singh HANSPAL (21961), Uday Jagannath KULKARNI (21964), Ashwani Kumar PUNDHIR (21966) and Venkata Lakshmana Kumar ANUKULA (21967) wef 10 Jun 92.

The President is pleased to terminate Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned and grant them Short Service Commission with effect from 10 Jun 92 in the Administrative (Fighter Controller) Branch of the IAF in the rank of Pilot Officer under the provisions of Government of India, Min of Def letter No. 4(4)/90/D (Air-III) dated 18 Jul 91.

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE (FIGHTER CONTROLLER) BRANCH

Avinash INDORIA (21923), Bakshi Pushpraj CHIBBER (21924), Arjunan SAMIAPPAN (21925), Sanjay Kumar RATHOR (21926), Partha ACHARYA (21928), Paramjeet SINGH (21929), Kiran Krishnan NAIR (21932), Sanjay KUMAR (21933), Satinder SINGH (21934), RAJESH PN (21935), Rajeev DAS (21941), Shiv Prasad SATI (21944), Biswajit MISHRA (21945), Anand Janardan LAMDHARE (21947), Ranabir BANERJEE (21955), A EBENEZER (21956), Parag Ramesh CHITNAVIS (21960), Faisal Fayis Matheruvathu PANABROM (21963) and Biju Mathew KURUKATTU (21965) wef 10 Jun 92.

S BASU, Sqn Ldr.
ADPO3 (D).

"NATIONAL CADET CORPS"

No. 196, dated the 8th February 1994.—The undermentioned is granted the rank of Colonel-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Army Staff :—

General BC Joshi, PVSM, AVSM, ADC Chief the Army Staff Army Headquarters, New Delhi, 01 Jul 93.

The undermentioned is granted the rank of Captain-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Naval Staff :—

Admiral VS Shekhawat, PVSM, AVSM, Vrc, ADC Chief of the Naval Staff, Naval Headquarters, New Delhi, 01 Aug 93.

The undermentioned is granted the rank of Commodore-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Air Staff :—

Air Chief Marshal SK Kaul, Chief of the Air Staff, Air Headquarters, New Delhi, 01 Oct 93.

PC UPPAL, Brig
Dy. Director General (MS).

COAST GUARD

No. 197, dated the 15th February 1994.—The President is pleased to confirm the following acting Commandants in the rank of Commandant with effect from the date shown against each :—

General Duty

- LS Asai (0024-D), 23-06-92.
 AK Verma (0045-C), 23-06-92.
 AK Sahore (0038-L), 30-06-92.
 VJS Chawla (0037-J), 01-07-92.
 BK Patasahani (0044-X), 01-07-92.
 Alok Dixit (0040-P), 06-07-92.
 S Murali (0039-M), 10-07-92.

Technical Duty

- R Ranjan (4010-M), 23-06-92.
 KN Gupta (5003-S), 23-06-92.

BABU CHERIAN, Desk Officer.

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 198, dated the 23rd December 1993.—The President is pleased to make the following promotions :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Shri K. V. Narayan Murthy, Scientist 'C', Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad to be officiating Scientist 'D' in the same Laboratory with effect from 5-7-1993 (F/N).

This supersedes earlier DGN issued in this regard.

Mrs. M. Nalini, Scientist 'B', Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad to be officiating Scientist 'C' in the same Laboratory with effect from 06-07-1992 (F/N).

This supersedes earlier DGN issued in the regard.

D. J. ANDREW, Assistant Director (Personnel).

(ARMY BRANCH)

No. 199, dated 7th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Lt Gen

- Maj Gen S Verma (IC-8572), AOC, 01-07-93.
 Maj Gen AK Gautama (IC-10489), AC, 22-07-93 with seniority from 15-09-92 without effect on pay and pension.
 Maj Gen JS Duggal (IC-10429), Sigs, 28-09-93.
 Maj Gen S Talwar (IC-10457), VSM**, AOC, 21-10-93.
 BM NIRWAN. AMS (X).

No. 200, dated the 9th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be substantive Cols

- Shangara Singh (IC-23806M), Inf., 01st Feb 1993.
 K. S. Gujral (IC-23828L), Inf., 01st Feb 1993.
 C. R. Ramachandran (IC-23877N), Inf., 01st Feb 1993.
 A. K. Bawa (IC-23912L), Inf., 01st Feb 1993.
 N. M. Sharma (IC-23993W), Inf., 01st Feb 1993.
 H. C. Rastogi (IC-23702L), Arty., 01st Feb 1993.
 S. N. Hooda (IC-23698N), Inf., 01st Feb 1993.
 D. R. Choudhary (IC-29416A), Inf., 01st Feb 1993.
 R. S. Rathore (IC-29459P), Inf., 01st Feb 1993.
 G. S. Gill (IC-29581L), Inf., 01st Feb 1993.
 M. S. Sawhney (IC-29612A), AOC., 16 Mar 1993. but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay & pension.
 S. S. Malik (IC-28722H), Inf., 01st Feb 1993.
 Darshan Shyam (IC-28725W), Inf., 01st Feb 1993.
 R. S. Mehta (IC-28733P), AC., 01st Feb 1993.
 Amar Nath (IC-28738N), Arty., 01st Feb 1993.
 Manmohan Singh (IC-28749A), Arty., 01st Feb 1993.
 Bhagwan Singh (IC-28753H), Inf., 01st Feb 1993.
 J. P. S. Randhawa (IC-28756W), Inf., 01st Feb 1993.
 M. P. S. Bajwa (IC-28758F), Inf., 01st Feb 1993.
 V. K. Gaur (IC-28761F), Inf., 01st Feb 1993.
 Rajiv Vig (IC-28765X), Arty., 01st Feb 1993.
 S. S. Sachdeva (IC-28768L), Arty., 01st Feb 1993.
 D. C. Tyagi (IC-28774Y), Inf., 01st Feb 1993.
 M. S. Dadhwal (IC-28776K), Inf., 01st Feb 1993.
 V. K. Goswamy (IC-28782X), Inf., 25th Apr 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay & pension.
 R. K. S. Bijarnia (IC-28789F), AOC., 01st Feb 1993.
 D. Davasagayam (IC-28792F), Arty., 01st Feb 1993.
 M. S. Thakur (IC-28793K), Inf., 01st Feb 1993.
 K. K. Kapur (IC-28799L), Arty., 01st Feb 1993.
 H. S. Sandhu (IC-26839H), EME., 05th February 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.
 A. S. Puri (IC-19585N), EME., 15th February 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.
 S. C. Mohanty (IC-24464W), EME., 17th Mar 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.
 J. M. Gupta (IC-28205L), EME., 21st February 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

Vinod Kumar (IC-19859N), EME., 29th May 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

Jagtar Singh (IC-29190A), EME., 28th May 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

Rajendra Singh (IC-28547Y), EME., 10th June 1993, but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

R. K. Sharma (IC-26812L), EME., 31st May, 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

V. K. Khajuria (IC-26866M), EME., 5th June 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

Pal Singh (IC-26998A), EME., 23rd August 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

K. R. Seshasayee (IC-32427Y), EME., 30th July 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

V. K. Salomen (IC-32433L), EME., 14th July 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

U. K. Jha (IC-23334F), EME., 21st May 1993, but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

Ranjeev Saluja (IC-23361L), EME., 21st May 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

B. D. Wadhwa (IC-23431Y), EME., 02nd July 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

G. S. Taila (IC-25359M), EME., 07th May 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

N. M. Tiwari (IC-25371N), EME., 14th July 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

T. S. Sekhon (IC-25378X), EME., 4th July 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.

S. K. Abuja (IC 28299N), EME., 15th Jul. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

M. S. Bhatti (IC 28319W), EME., 20th Jul. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

R. K. Choudhary (IC 28422F), ASC., 01st Apr. 1992.

H. S. Khara (IC 28437K), EME., 01st Jul. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

Satbir Singh (IC 28525A), EME., 16th Aug. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

R. K. Mehra (IC 28567M), EME., 15th May 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

E. J. Machado (IC 28784H), EME., 03rd Aug. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

John Mathew (IC 29145N), EME., 11st Jul. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

V. K. Rajendran (IC 29103P), EME., 01st Sep. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

Ravi Khullar (IC 25743N), EME., 17th Aug. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

G. A. Nair (IC 25772H), EME., 21st Jul. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.

R. D. Sharma (IC 23815N), EME., 29th Jul. 1993 but with seniority from 01st Sep. 1992 without effect on pay and pension.

Peter Lores (IC 16339), 2nd Feb. 1991 but with seniority from 01st Aug. 1987 without effect on pay and pension.

D. S. Manjarekar (IC 16563K), AOC., 01st Oct. 1989 but with seniority from 01st Apr. 1988 without effect on pay and pension.

C. D. Tokas (IC 28804L), Inf., 01st Feb. 1993.

K. S. Dogra (IC 28805N), Arty., 01st Feb. 1993.

V. K. Anand (IC 28808F), Inf., 01st Feb. 1993.

S. N. Yadav (IC 28809K), ASC., 01st Feb. 1993.

M. C. Appanna (IC 28834H), Arty., 01st Feb. 1993.

Viswanath Singh (IC 28840W), Arty., 01st Feb. 1993.

P. S. Krishnamurari (IC 28849L), Arty., 01st Feb. 1993.

R. K. Davesar (IC 28850A), Inf., 01st Feb. 1993.

A. P. Singh (IC 28865H), Sigs., 01st Feb. 1993.

R. K. Sudan (IC 28867N), Arty., 01st Feb., 1993.

R. P. Singh (IC 28899W), Inf., 01st Feb. 1993.

C.R.S. Bahadur (IC 28901H), Inf., 01st Feb. 1993.

B. S. Judge (IC 28909P), Inf., 01st Feb. 1993.

S. S. Gulia (IC 28912P), Inf., 01st Feb. 1993.

K. K. Khurana (IC 28914A), Inf., 01st Feb. 1993.

G. Ballabh (IC 28924K), ASC., 01st Feb. 1993.

G. P. Khanduri (IC 28966W), Sigs., 01st Feb. 1993.

Prem Kumar (IC 28980H), Arty., 01st Feb. 1993.

S. R. Mohite (IC 28997W), Engrs., 01st Feb. 1993.

S. K. Kar (IC 28998Y), Inf., 01st Feb. 1993.

S. Chakravarty (IC 29009X), Arty., 01st Feb. 1993.

P. S. Bahukhandi (IC 29023K), Inf., 01st Feb. 1993.

R. P. Nautiyal (IC 29043X), Arty., 01st Feb. 1993

V. K. Koser (IC 29060X), Inf., 01st Feb. 1993.

P. R. Kathuria (IC 29087P), Inf., 01st Feb. 1993.

Ravinder Singh (IC 29123P), Inf., 01st Feb. 1993.

A. K. Gautam (IC 27143K), Engrs., 01st Feb. 1993.

A. K. Kadian (IC 27145P), Engrs., 05th Feb. 1993 but with seniority from 01st Feb. 1993 without effect on pay and pension.

U.S.P. Sinha (IC 27146X), Engrs., 28th May 1993 but with seniority from 01st Feb. 1993 without effect on pay and pension.

Deepak Pande (IC 27149A), Sigs., 01st Feb. 1993.

Majors to be Substantive Lt Cols (by Selections)

A. K. Wahie (IC 27392H), Sigs., 10th June, 1993 but with seniority from 01st Jan. 1993 without effect on pay and pension.

B. M. Louis (IC 27395W), Sigs., 01st Jan. 1993.

Dhirendra Dhasmana (IC 27405P), Int Corps., 25th Jan. 1993 but with seniority from 01st Jan. 1993 without effect on pay and pension.

K. P. S. Rana (IC 27409L), Inf., 01st Jan. 1993.

H. S. Tripathi (IC 27418M), Arty., 01st Jan. 1993.

K. P. S. Rana (IC 27409L), Inf., 01st Jan. 1993.

V. S. Srivastava (IC 27413N), Arty., 01st Jan. 1993.

H. S. Tripathi (IC 27418M), Arty., 01st Jan. 1993.

Fateh Singh (IC 27420K), Inf., 01st Jan. 1993.

K. S. Aithmian (IC 27425H), Inf., 01st Jan. 1993.

W. G. Meprath (IC-27426L), ASC., 01st Jan. 1993.

R. S. Rana (IC 27433F), Inf., 01st Jan. 1993.

Mahipal Sharma (IC 27436P), ASC., 01st Jan. 1993.

D. K. Bhayana (IC 27442H), Arty., 01st Feb. 1993.

Nirmal Singh (IC 27443L), Arty., 01st Feb. 1993.

P. B. Gurung (IC 27446Y), Inf., 01st Feb. 1993.

P. V. Brid (IC 27453P), Inf., 01st Feb. 1993.

S. S. Kingra (IC 27455A), Arty., 01st Feb. 1993.

T. C. Mohan (IC-27456H), Arty., 01st Feb. 1993.

L. J. S. Bains (IC 32816X) Engrs., 01st Nov. 1992.

V. Kanwar (IC 32817A) AOC., 01st Nov. 1992.

M. S. Yadav (IC 32847X) Arty., 01st Nov. 1992.

F. B. Allavali (IC 32856Y) Arty., 01st Nov. 1992.

S. K. Chaudhury (IC 32860F) Inf., 01st Nov. 1992.

Sumit Kumar (IC 32862M) Inf., 01st Dec. 1992.

A. K. Srivastava (IC 32885N) JAG., 01st Dec. 1992.

J. N. Mallick (IC 32891F) Inf., 01st Dec. 1992.

Randhir Singh (IC 32914X) Inf., 01st Dec. 1992.

S. K. Mujumdar (IC 32934L) Inf., 01st Dec. 1992.

H. J. K. Singh (IC 32955F) AEC., 08th Jun. 1993 but with seniority from 01st Dec. 1992 without effect on pay and pension.

K. V. Narayanaswamy (IC 36189N) EME., 04th May 1993 but with seniority from 01st Dec. 1992 without effect on pay and pension.

R. K. Chadha (IC 36190H) EME., 15th Jun. 1993 but with seniority from 01st Dec. 1992 without effect on pay and pension.

R. S. Kanwar (IC 27195A) A C., 01st Dec. 1992.

V. K. Chona (IC 27196H) Inf., 01st Dec. 1992.

Vinod George (IC 27197L) Engrs., 01st Dec. 1992.

TR Krishanan (IC 27198N) -Inf., 01st Dec. 1992.

S. V. Kulkarni (IC 27199W) Arty., 01st Dec. 1992.

J. S. Dalal (IC 27200A) Inf., 01st Dec. 1992.

S. K. Singh (IC 27203N) Inf., 01st Dec. 1992.

V. K. Sharma (IC 27204W) Inf., 01st Dec. 1992.

Vinay Bhatnagar (IC 27205Y) Inf., 01st Dec. 1992.

S. P. Sinha (IC 27206F) AOC., 01st Dec. 1992.

R. S. Udawat (IC 27209P) A C., 01st Dec. 1992.

V. K. Gupta (IC 27210K) Arty., 01st Dec. 1992.

Anil Kumar (IC 27211M) Arty., 01st Dec. 1992.

J. K. Sharma (IC 27212P) EME., 26th March 1993 but with seniority from 01st Dec. 92 without effect on pay and pension.

Vickas Kapur (IC 27213X) Arty., 01st Dec. 1992.

S. K. Mangotra (IC 32727Y) Inf., 01st Oct. 1992.

Vijay Saxena (IC 32728F) AC., 01st Oct. 1992.

U. M. Maindarkar (IC 32731F) A C., 01st Oct. 1992.

V. K. Malhotra (IC 32733M) Arty., 01st Oct. 1992.

C. M. Harnal (IC 32738L) EME., 26th Apr. 1993 but with seniority from 01st Oct. 1992 without effect on pay and pension.

Digvijay Singh (IC 32739N) Inf., 01st Oct. 1992.

Kuldip Singh (IC 32743W) Inf., 01st Oct. 1992.

Tarsem Singh (IC 32745F) ASC., 01st Oct. 1992.

K. Subramanian (IC 32746K) Arty., 01st Oct. 1992.

D. K. Singh (IC 32748P) Arty., 01st Oct. 1992.

R. K. Tikoo (IC 32749X) Inf., 01st Oct. 1992.

Ajit Kamal (IC 32750M) Inf., 01st Oct. 1992.

P. V. David (IC 32752X) ASC., 01st Feb. 1993 but with seniority from 01st Nov. 1992 without effect on pay and pension.

B. Ramani (IC 32756N) Arty., 01st Nov. 1992.

Harish Sibal (IC 32757W) Engrs., 01st Nov. 1992.

I. M. Singh (IC 32759F) A C., 01st Nov. 1992.

Hardev Singh (IC 32761Y) Arty., 01st Nov. 1992.

Lokendra Singh (IC 32762F) Inf., 01st Nov. 1992.

M. S. Sandhu (IC 32764M) Inf., 01st Nov. 1992.

H. C. Marwah (IC 32767A) Arty., 01st Nov. 1992.

V. K. Sharma (IC 32768H) Inf., 01st Nov. 1992.

Clayton Solomon (IC 32775Y) Inf., 01st Nov. 1992.

M. S. Chauhan (IC 32779P) Inf., 01st Nov. 1992.

J. S. Rathore (IC 32784A) A C., 01st Nov. 1992.

S. S. Pabla (IC 32787N) Engrs., 01st Nov. 1992.

N. N. Madappa (IC 32792Y) Inf., 01st Nov. 1992.

V. B. Singh (IC 32793F) Inf., 01st Nov. 1992.

J. Susainathan (IC 32796P) AOC., 01st Nov. 1992.

Manjit Singh (IC 32803A) AOC., 15th Feb. 1993 but with seniority from 01st Nov. 1992 without effect on pay and pension.

C. S. Sandhu (IC 32809F) Inf., 01st Nov. 1992.

Brijendra Singh (IC 32488P) A C., 01st Jun. 1992.

S. Badrinarayanan (IC 32490M) Engrs., 01st Jun. 1992.

BB Sharma (IC 32493A) EME., 15th Jan. 1993 but with seniority from 01st Jun. 1992 without effect on pay and pension.

K. S. Khatri (IC 32495L) Inf., 01st Jul. 1992.

S. Sereeramulu (IC 32496N) Arty., 01st Jul. 1992.

M. E. Jamwal (IC 32498Y) INT., 14th Aug. 1992 but with seniority from 01st Jul. 1992 without effect on pay and pension.

Gurukirpal Singh (IC 32511X) EME., 08th Jan. 1993 but with seniority from 01st Jul. 1992 without effect on pay and pension.

Sudhir Kumar (IC 32516W) Sigs., 01st Jul. 1992.

K. A. Uthaiiah (IC 32526A) Inf., 01st Jul. 1992.

Surinder Singh (IC 32529N) Inf., 01st Jul. 1992.

Jatinder Singh (IC 32531L) Engrs., 01st Jul. 1992.

J. P. Gurjar (IC 32533W) Inf., 01st Jul. 1992.

- V. K. Raina (IC 32542X) A C., 01st Jul. 1992.
- T. G. Venkatesh (IC 32547W) EME., 19th Mar. 1993 but with seniority from 01st Jul. 1992 without effect on pay and pension.
- R. K. Malhotra (IC 32550W) Inf., 01st Jul. 1992.
- Vijay Kumar (IC 32551Y) Inf., 01st Jul. 1992.
- K. S. Sahi (IC 32552F) ASC., 25th Aug. 1992 but with seniority from 01st Jul. 1992 without effect on pay and pension.
- K. Muthuswamy (IC 32557A) Engrs., 01st Jul. 1992.
- Sandeep Bhalla (IC 32579Y), AOC 01st Aug 1992 but with seniority from 01st Jul. 1992 without effect on pay and pension.
- Satish Kumar (IC 32584K) Sigs., 01st Jul. 1992.
- P. A. Augustin (IC 32586P) Arty., 01st Jul. 1992.
- Sunil Malik (IC 32589H) Arty., 01st Jul. 1992.
- I. N. Jha (IC 32593L) Inf., 01st Jul. 1992.
- J. Bantleman (IC 32597N) Sigs., 01st Jul. 1992.
- G. K. Balakrishna (IC 32624A) Arty., 01st Jul. 1992.
- R. K. Jain (IC 32627N) AOC., 01st Oct. 1992 but with seniority from 01st Jul 1992 without effect on pay and pension.
- V. R. K. Prasad (IC 32634K) Sigs., 01st Jul. 1992.
- M.S. Bisla (IC 32635M) Inf., 01st Aug. 1992.
- S. K. Sood (IC 32636P) Inf., 01st Aug. 1992.
- R. C. Laddha (IC 27175H) AEC., 22nd Jul. 1993 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.
- K. L. Yadav (IC 32528L) AEC., 01st May 1993 but with seniority from 01st Jul. 1992 without effect on pay and pension.
- Devendra Singh (IC 32658N) Inf., 01st Aug. 1992.
- K. Chakravertti (IC 27070H) Inf., 01st Apr. 1992.
- G. I. Paneri (IC 27071L) Inf., 01st Apr. 1992.
- G. Singh (IC 27075F) AOC., 15th Aug. 1992 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.
- K. K. Mehta (IC 27076K) Inf., 01st Apr. 1992.
- S.L.A. Khan (IC 27078P) Inf., 01st Apr. 1992.
- V.P.S. Sekhon (IC 27082X) Arty., 01st Apr. 1992.
- S.K. Gupta (IC 27088Y) Inf., 01st Apr. 1992.
- S.P. Khalkho (IC 27089F) Inf., 01st Apr. 1992.
- A.P.S. Sandhu (IC 27091Y) Inf., 01st Apr. 1992.
- Jagdish Madan (IC 27094M) Inf., 01st Apr. 1992.
- S.D. Pawar (IC 27099) Inf., 01st Apr. 1992.
- H.K. Singh (IC 27100P) Sigs., 01st Apr. 1992.
- Sukhbir Singh (IC 27101X) ASC., 01st Apr. 1992.
- Jagmohan Singh (IC 27104L) Inf., 01st Apr. 1992.
- G.S. Narula (IC 27106W) AOC., 16th Aug. 1992 but with seniority from 01st Apr. 1992 without effect on pay and pension.
- A.K. Udasi (IC 27109K) Inf., 01st Apr. 1992.
- Jagdish Singh (IC 27112K) Inf., Apr. 1992.
- G.P. Sinha (IC 27115X) A C., 01st Apr. 1992.
- H.C. Sethi (IC 27119N) Arty., 01st Apr. 1992.
- Raj Kapoor (IC 27125F) AOC., 24th Aug. 1992 but with seniority from 01st Apr. 92 without effect on pay and pension.
- K.S. Gulia (IC 27127M) Inf., 01st Apr. 1992.
- Deepak Joshi (IC 27130M) Inf., 01st Apr. 1992.
- H.S. Bhandal (IC 27153N) AEC., 15th Mar. 1993 but with seniority from 01st Apr. 92 without effect on pay and pension.
- KAR Subrata (IC 29557F) Engrs., 01st Apr. 1992.
- S. Singh (IC 32720P) Inf., 01st Apr. 1992.
- R.P. Singh (IC 32724L) Inf., 01st Apr. 1992.
- A.S. Chahal (IC 32730Y) Arty., 01st Apr. 1992.
- J.S. Grewal (IC 32765P) Inf., 01st May 1992.
- M.C. Kunnath (IC 32771H) Arty., 01st May 1992.
- P.C. Panjekar (IC 27256M) Inf., 01st Dec. 1992.
- S. S. Joglekar (IC 27257P) Sigs., 01st Dec. 1992.
- Rajinder Singh (IC 27258) Inf., 01st Dec. 1992.
- V. S. Chaudhry (IC 27259A) Arty., 01st Dec. 1992.
- P. Kumar (IC 27262A) Arty., 01st Dec. 1992.
- A. C. Soneja (IC 27264L) Inf., 01st Dec. 1992.
- B. V. Nair (IC 27265) Arty., 01st Dec. 1992.
- N. Nagender (IC 27267Y) Inf., 01st Dec. 1992.
- M. V. Arab (IC 27268F) Sigs., 01st Dec. 1992.
- S. S. Sengupta (IC 27269K) Engrs., 01st Dec. 1992.
- B. S. Shekhawat (IC 27270Y) Inf., 01st Dec. 1992.
- D. P. Singh (IC 27271F) Inf., 01st Dec. 1992.
- I. B. Singh (IC 27274P) A C., 01st Dec. 1992.
- C. D. Devakumar (IC 27275X) Arty., 01st Dec. 1992.
- Ishwar Singh (IC 27276A) Inf., 01st Dec. 1992.
- S. S. Ahlawat (IC 27277H) A C., 01st Dec. 1992.
- P. K. Rajkhowa (IC 27283W) Arty., 01st Dec. 1992.
- Vinay Sagar (IC 27285) EME., 14th May, 1993 but with seniority from 01st Dec. 1992 without effect on pay and pension.
- A. K. Opal (IC 27286K) Arty., 01st Dec. 1992.
- G. B. Daultani (IC 27287M) Sigs., 01st Dec. 1992.
- S. G. Gokhale (IC 27288P) Arty., Dec. 1992.
- A. H. Gadre (IC 27289X) Arty. 01st Dec. 1992.
- Ramesh Halgali (IC 27290M) Inf., 01st Dec. 1992.
- Rajan Oberoi (IC 27295L) A C., 01st Dec. 1992.
- K. A. Cariappa (IC 27297W) Sigs., 01st Dec. 1992.
- B. S. Birgi (IC 27299F) AOC, 15th Dec. 1992 but with seniority from 01st Dec 92 without effect on pay and pension.
- L. J. Singh (IC 27300L) Inf., 01st Dec. 1992.
- I. S. Rathee (IC 27303Y) Arty., 01st Dec. 1992.
- C. S. Thapa (IC 27304F) A C., 01st Dec. 1992.
- H. S. Bedi (IC 27305K) A C., 01st Dec. 1992.

MANJIT SINGH, CSO
Dy. Asstt. Military Secy.

No. 201, dated 3rd February 1994.—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

Major to be Lt Col

S Karkun (DR-10309K), 24-12-93.

Capt to be Major

VB Mandlik (DR-10420N), 10-12-93.

MR Vasant (DR-10410K), 14-12-93.

VK SOOD, Brig
Dy DG DS

ARMY BRANCH

No. 202, dated 14th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Gyan Singh (No. 4060793W now JC-810053N), 18 Aug 93.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 93 without effect on pay and allowances).

Hav Laden Bhutia (No. 9415489H now JC-810055Y), 06 Aug 93.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 93 without effect on pay and allowances).

Hav Banarsi Lal (No. 7430310P now JC-810068W), 08 Dec 93.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 93 without effect on pay and allowances).

Hav Roshan Lal Saklani (No. 4053667F now JC-810069Y), 01 Oct 93.

Hav Labh Singh (No. 3377689F now JC-810071W), 06 Nov 93.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 93 without effect on pay and allowances).

Hav Bais Bahadur Gurung (No. 5448112A now JC-810072Y), 01 Oct 93.

Hav Tulsi Ram (No. 13743606K now JC-810077X), 01 Nov 93.

To be Nb Sub (Translator)

Hav Vijay Kumar (Trbr) (No. 1066918W now JC-810033A), 27 Apr 93.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Raj Pal (No. 14310938W now JC-810073F), 06 Dec 93.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 93 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Ramel Chand (No. 14310999N now JC-810074K), 04 Nov 93.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 93 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Chand Ram Bhardwaj (No. 2664511P now JC-810075M), 01 Nov 93.

Hav (Clk) Amulya Barua (No. 7430303Y now JC-810076P), 01 Nov 93.

PREM KUMAR HANS
Desk Officer

No. 203, dated 15th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Gam Bahadur Gurung (No. 14311938H now JC-255754Y), 01 Aug 92.

Hav Ramoutar (No. 14302172H now JC-255755F), 01 Sep 92.

BHM Suriya Kant (No. 14316124N now JC-255756K), 06 Oct 92.

Hav Vijender Singh Yadava (No. 1263837P now JC-255757M), 01 Oct 92.

Hav Krishan Singh (No. 14455423X now JC-255758P), 01 Oct 92.

Hav Madan Lal (No. 14317506K now JC-255759X), 03 Oct 92.

Hav Sukhdev (No. 11144220Y now JC-255760M), 01 Nov 92.

Hav Sulkhan Singh (No. 1264747A now JC-255761P), 04 Nov 92.

BHM Lal Singh (No. 14316167H now JC-255762X), 09 Jan 93*.

*(Granted seniority w.e.f. 22 Nov 92 without effect on pay and allces).

Hav Daljinder Singh (No. 14308384K now JC-255763A), 10 Jul 93*.

*(Granted seniority wef 24 Nov 92 without effect on pay and allces).

Hav Paramjit Singh (No. 14321962M now JC-255764H), 25 Nov 92.

BHM Pradeep Kumar P (No. 14316403Y now JC-255765L), 30 Nov 92.

Hav N Marimuthu (No. 1265874F now JC-255766N), 30 Nov 92.

Hav Amir Singh (No. 14329958Y now JC-255767W), 30 Nov 92.

BHM Balbir Singh (No. 14321275W now JC-255768Y), 01 Dec 92.

Hav K R Patil (No. 1268117X now JC-255769F), 13 Jan 93*.

*(Granted seniority wef 01 Dec 92 without effect on pay and allces).

Hav PV Ramadasan (No. 14321578L now JC-255770W), 01 Dec 92.

Hav Ved Parkash (No. 14455511N now JC-255771Y), 05 Dec 92.

Hav Karan Singh Yadav (No. 1268848L now JC-255772 F), 01 Jan 93.

Hav Dina Nath Misra (No. 14330040L now JC-255773K), 01 Jan 93.

Hav Lila Ram (No. 14319800H now JC-255774M), 01 Jan 93.

Hav Raj Kumar (No. 1266826N now JC-255775P), 01 Jan 93.

Hav Shaik Moulali (No. 14323854F now JC-255776X), 26 Jun 93.*

*(Granted seniority wef 01 Jan 93 without effect on pay and allces).

RHM Rattan Lal Yadav (No. 14325420A now JC-255777 A), 01 Jan 93.

RHM Bachan Singh (No. 1264438X now JC-255778H), 07 Jan 93.

RHM A Duraisamy (No. 1261471K now JC-255779L), 13 Jan 93.

RHM Kunwar Singh Kandari (No. 14322655F now JC-255780A), 01 Feb 93.

Hav Omveer Singh (No. 1267160M now JC-255781H), 28 Feb 93.

Hav Parshottam Singh (No. 14453365A now JC-255782 L), 28 Feb 93.

Hav Gopal Ude Bhanji Sawarkar (No. 14329623F now JC-255783N), 01 Mar 93.

Hav Baldev Singh (No. 14313774W now JC-255784W), 29 May 93.*

*(Granted seniority wef 01 Mar 93 without effect on pay and allces).

BHM Prem Pal (No. 14317639A now JC-255785Y), 30 Jul 93.*

*(Granted seniority wef 01 Mar 93 without effect on pay and allces).

BHM Tara Chand (No. 14317507M now JC-255786F), 01 Mar 93.

BHM Anar Chand Kumain (No. 4053294Y now J C-255787K), 08 Jul 93.*

*(Granted seniority wef 01 Mar 93 without effect on pay and allces).

BHM Mahabir Singh Rawat (No. 14320529W now JC-255788M), 01 Apr 93.

BHM Kanwal Singh (No. 14320755N now JC-255789P), 01 Apr 93.

Hav Sudarshan Ram (No. 14452955M now JC-255790K), 01 Apr 93.

Hav Ami Chand (No. 14316479Y now JC-255791M), 01 May 93.

Hav Hans Raj (No. 14303267P now JC-255792P), 14 Jun 93.*

*(Granted seniority wef 01 May 93 without effect on pay and allces).

Hav S Seetharam (No. 14327271W now JC-255793X), 01 May 93.

BHM A Krishna Morthy (No. 14454856H now JC-255794A), 01 May 93.

BHM Chaman Lal (No. 11078519W now JC-255795H), 01 May 93.

BHM A Selvaraj (No. 1259360N now JC-255796L), 22 Jul 93.*

*(Granted seniority wef 01 May 93 without effect on pay and allces).

Hav Tejpal Yadav (No. 14343537F now JC-255797N), 01 May 93.

BHM Kuljit Singh Thandi (No. 1269322L now JC-255798 W), 01 Jun 93.

BHM Ram Kumar (No. 14320920N now JC-255799Y), 01 Jun 93.

Hav Pawar Kishor Dattaram (No. 14476937H now JC-255800H), 01 Jun 93.

RHM Pritam Chand (No. 11160956H now JC-255801L), 01 Jun 93.

BHM Subhas Chander (No. 14451595P now JC-255802 N), 27 Aug 93.*

*(Granted seniority wef 01 Jun 93 without effect on pay and allces).

RHM Kurella Jaya Prakash Narayana (No. 14454730H now JC-255803W), 21 Jul 93.*

*(Granted seniority wef 04 Jun 93 without effect on pay and allces).

Hav Satya Pal (No. 14330638W now JC-255804Y), 17 Jun 93.

Hav Mukand Singh (No. 14310485W now JC-255805F), 01 Jul 93.

BHM Ishwar Singh (No. 14303121F now JC-255806K), 01 Jul 93.

BHM Shyam Bahadur Thapa (No. 5445147L now JC-255807M), 01 Jul 93.

BHM Kashmir Singh (No. 1266080H now JC-255808P), 01 Jul 93.

Hav Basappa Udikeri (No. 14313963A now JC-255809 X), 01 Jul 93.

Hav Asharfi Lal Rajput (No. 14321185P now JC-255810 M), 01 Jul 93.

Hav Kale Manohar Santosh Rao (No. 14333537N now JC-255811P), 01 Jul 93.

Hav Kalyan Prasad Singha Mahapatra (No. 14326868M now JC-255812X), 01 Jul 93.

Hav Rudar Singh (No. 4053422L now JC-255813A), 01 Jul 93.

BHM Sawant Balkrishna Rang Rao (No. 14312035X now JC-255814H), 01 Jul 93.

BHM Ram Naresh Sharma (No. 1260652H now JC-255815L), 01 Jul 93.

Hav Bala Ram Yadav (No. 14321481A now JC-255816 N), 01 Jul 93.

BHM G Isaac (No. 1268928H now JC-255817W), 31 Aug 93.*

*(Granted seniority wef 01 Jul 93 without effect on pay and allces).

Hav Swami Manohar Prabhuling (No. 1263788X now JC-255818Y), 01 Aug 93.

To be Nb Sub

Hav Shinde Dhondiram Jagannath (14329664L now JC-255819F), 08 Oct 92*

*(Granted seniority wef 11 Jul 92 without effect on pay and allowances)

Hav Varghese PA (14455955X now JC-255820W), 01 Sep 92

BHM Dhana Sekaran (1256605N now JC-255821Y), 08 Dec 92*

*(Granted seniority wef 05 Nov 92 without effect on pay and allces)

BHM Nagina Singh (1257950N now JC-255822F), 29 Jun 93*

*(Granted seniority wef 01 Nov 92 without effect on pay and allces)

RHM Atul Chandra Bhuyan (1267593K now JC 255823), 20 Nov 92

BHM Govind Ram (14451193X now JC 255824M), 20 Nov 92

Hav Patil Balasaheb Tukaram (14474935Y now JC-255-825P), 20 Nov 92

RHM Nand Lal Meena (14313254L now JC-255826X), 20 Nov 92

Hav Ramesh Chand (14308898F now JC-255827A), 01 Dec 92

RHM Kushal Singh (14328810N now JC-255828H), 24 May 93*

*(Granted seniority wef 01 Dec 92 without effect on pay and allces)

Hav Kulwant Singh (1266226L now JC-255829L), 01 Dec 92

Hav Ramesh Chander (1260952K now JC-255830A), 02 Feb 93*

*(Granted seniority wef 30 Dec 92 without effect on pay and allces)

BHM Auti Bhaskar Bhaguji (14325373N now JC-255831H), 24 May 93*

*(Granted seniority wef 01 Jan 93 without effect on pay and allces)

RHM Om Parkash (1262075A now JC-255832L), 28 Jan 93

BHM Damodar Singh (1256648H now JC-255833 09 Mar 93*

*(Granted seniority wef 01 Mar 93 without effect on pay and allces)

Hav Naresh Kumar Lakkanpal (1264792M now JC-255-834W), 02 Jul 93*

*(Granted seniority wef 20 Mar 93 without effect on pay and allces)

Hav S Balasubramanian (1261717X now JC-255835Y), 25 Jun 93*

*(Granted seniority wef 01 Apr 93 without effect on pay and allces)

BHM Rohlas Singh (14322328W now JC-255836F), 31 May 93*

*(Granted seniority wef 01 May 93 without effect on pay and allces)

Hav Mange Ram (14350158N now JC-255837K), 11 May 93

BHM Jai Singh (14320844M now JC-255838M), 01 Jun 93

Hav Suresh K C (14328968W now JC-255839P), 01 Jun 93

Hav Devraj Singh Manahas (1251682Y now JC-255840K), 01 Jul 93

BHM Toru Singh (1265416L now JC-255841M), 01 Jul 93

Hav Ram Dayal Singh (1255481K now JC-255842P), 01 Jul 93

Hav Mohinder Singh (1255811L now JC-255843X), 01 Jul 93

Hav Sardul Singh (1262823H now JC-255844A), 01 Jul 93

BHM Vijay Kumar (14451139K now JC-255845H), 01 Jul 93

Hav Mahabir Singh (14451804F now JC-255846L), 01 Jul 93

Hav Dilip Singh Yadav (1268729P now JC-255847N), 01 Jul 93

Hav Mangala Singh Yadav (1259201W now JC-255848W), 01 Jul 93

Hav Birender Singh Yadav (1267544F now JC-255849Y), 14 Aug 93*

*(Granted seniority wef 18 Jul 93 without effect on pay and allces)

Hav John Mashach Eluri (14325877F now JC-255850N), 11 Aug 93*

*(Granted seniority wef 01 Aug 93 without effect on pay and allces)

Hav Baldev Singh (1251746Y now JC-255851W), 01 Aug 93

Hav Bhupinder Singh (1269080N now JC-255852Y), 30 Nov 93*

*(Granted seniority wef 01 Sep 93 without effect on pay and allces)

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

Hav/Clks to be Nb Sub Clk (Postal)

Hav/Clk Govind Ram, 8020261M now (JC-834025A), 25 Jul 1993.*

Hav/Clk Pamu Buchaiah, 2568036M now (JC-834026H), 07 Aug 1993.*

Hav/Clk Rohtash Kumar, 1047311P now (JC-834027L), 25 Jul 1993.*

Hav/Clk Arun Kumar Bose, 9213588H now (JC-834028N), 08 Sep 1993.*

Hav/Clk Kunhiraman PV, 14210722A now (JC-834029W), 10 Aug 1993.*

Hav/Clk OM Prakash, 13809166K now (JC-834030L), 24 Jul 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar/Clerks (Postal) w.e.f. dated 02 Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Defence Security Corps

To be Sub Maj

- Sub Shish Ram (JC-70897-M), 01 July 1993.
 Sub Jhallu Ram Tripathi (JC-100318-M), 01 Aug 1993.
 Sub Dalip Singh (JC-111060-K), 01 Aug 1993.
 Sub Satyendra Kumar Nath (JC-111761-A), 01 Aug 1993.
 Sub Darwan Singh (JC-111063-X), 01 Aug 1993.
 Sub Ram Sewak Misra (JC-111065-H), 01 Aug 1993.
 Sub Harnek Singh (JC-111064-A), 01 Sep 1993.
 Sub Sardar Singh (JC-114244-N), 01 Sep 1993.
 Sub Ganga Sahai (JC-113790-N), 01 Sep 1993.

To be Sub

- Nb Sub Sher Singh (JC-139197-M), 01 July 1993.
 Nb Sub Ram Chandra Tudu (JC-139189-N), 01 July 1993.
 Nb Sub Attuthykkal Raman Pillai Ramachandran Nair (JC-139170-P), 01 July 1993.
 Nb Sub Buta Singh (JC-92994-K), 01 July 1993.
 Nb Sub Asha Ram Varma (JC-138442-X), 01 July 1993.
 Nb Sub Kaniyan Kandy Raghavan (JC-115647-A), 01 July 1993.
 Nb Sub Kewal Krishan Dadwal (JC-130781-H), 01 July 1993.
 Nb Sub Rajendra Singh Thapa (JC-123030-Y), 01 July 1993.
 Nb Sub Shiridhar Prashad (JC-105814-L), 01 July 1993.
 Nb Sub Ranjit Singh Rawat (JC-101358-A), 01 July 1993.
 Nb Sub Thuru Ram (JC-114053-Y), 01 July 1993.
 Nb Sub Sohan Lal (JC-100230-H), 01 July 1993.
 Nb Sub Sucha Singh (JC-120147-M), 01 July 1993.
 Nb Sub Balwant Singh (JC-101966-F), 01 July 1993.
 Nb Sub Dhani Ram Sharma (JC-103040-F), 01 July 1993.

PRAKASH CHAND,
Under Secretary

No. 204, dated 14th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar

- Nb Sub Balakrishnan (JC-168793F), 05th Dec 1992.
 Nb Sub Amar Singh (JC-168794K), 01st May 1993.
 Nb Sub Avtar Singh (JC-173738P), 01st Jul 1993.
 Nb Sub Debi Singh (JC-152360A), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Subhash Chander Singh (JC-177521H), 01st Sep 1993.

Nb Sub Jaman Singh (JC-181418P), 01st Sep 1993.

To be Substantive Subedar

- Nb Sub Bhagwan Dass (JC-183675L), 01st Jul 1993.
 Nb Sub Sukhdev Singh (JC-183674H), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Netarpal Sharma (JC-184132I), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Parshottam Chand (JC-184141M), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Gurbax Ram (JC-184142P), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Dharam Chand (JC-18967A), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Hari Chand (JC-194217P), 01st Aug 1993.
 Nb Sub Kalyan Singh (JC-164922Y), 01st Oct 1993.

To be Substantive Subedar Major

- Sub Ladu Singh (JC-127114K), 01st Sep 1993.
 Sub Rathod Narayan Singh (JC-128477A), 01st Sep 1993.
 Sub Ramesh Raichurkar (JC-130673Y), 01st Sep 1993.

To be Substantive Subedar Major

- Sub Kailash Pati Tripathi (JC-144196N), 01st Nov 1993.

To be Substantive Subedar

- Nb Sub Pritam Singh (JC-168732K), 01st Sep 1993.
 Nb Sub Balram Singh (JC-157219H), 01st Sep 1993.
 Nb Sub Dalip Singh (JC-168734P), 01st Oct 1993.
 Nb Sub Sateh Singh (JC-162083N), 01st Oct 1993.
 Nb Sub Rameshwar Lal (JC-160839K), 01st Oct 1993.
 Nb Sub Gulab Singh (JC-152362L), 01st Oct 1993.
 Nb Sub Chhotu Singh (JC-157224N), 01st Oct 1993.
 Nb Sub Suman Singh (JC-157241N), 01st Oct 1993.
 Nb Sub Shambhu Prasad Sharma (JC-183672X), 01st Oct 1993.

D. R. SHARMA,
Under Secretary

No. 205, dated 10th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Educational Corps

To be Sub Maj

- P A Sub Maj Arjan Singh (JC-123878L), 01st Nov, 1993.
 P A Sub Maj Ramadhar Singh (JC-124942K), 01st Nov, 1993.
 P A Sub Maj Ram Dass Singh Yadav (JC-124726W), 01st Nov, 1993.
 P A Sub Maj Shripad Gokhale (JC-123874P), 01st Dec, 1993.
 P A Sub Maj Ram Pratap Mishra (JC-127942P), 01st Dec, 1993.

To be Sub

- P A Sub Kapil Deo Thakur (JC-183189N), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Net Ram Krishna (JC-183190H), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Bali Ram Tiwary (JC-183191L), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Rajinder Kumar Azad (JC-183192N), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Gopi Nath (JC-183193W), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Jagwant Singh (JC-183194Y), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Shankar Singh (JC-183195F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Sanwar Mal (JC-183196K), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Saitana Ram Gujjar (JC-185285F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Harbans Singh (JC-183197M), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Shaik Thangella Saheb (JC-183198P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Bijendra Singh (JC-183199X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Sukhbir Singh Chandele (JC-183200F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ramesh Chander Verma (JC-183201K), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ambika Prasad Singh (JC-183202M), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Hira Ballabh (JC-183204X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Kartuppannan Karuppiyah (JC-183205A), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Netke Narayan Ganpat Rao (JC-183206H), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Iqbal Singh (JC-183207L), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Chhote Lal Jatav (JC-156183H), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Sajjan Singh (JC-167039N), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Suresh Chandra Vishwakarma (JC-183209W), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Mohammed Salahuddin (JC-183210L), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ramphal (JC-183211N), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Nandan Singh Rathore (JC-183213Y), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Rajinder Singh Parmar (JC-183217P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Basavant Janu Jadhav (JC-183218X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Jagadanand Jha (JC-185286K), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Barmeshwar Nath Pandey (JC-185287M), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Uday Chandra Nath (JC-185288P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Md Ajmal Haque Laskar (JC-185292X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Krishan Dass (JC-187642X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ranjit Kumar Biswas (JC-185297W), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Narayan Chakraborty (JC-185298Y), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ishwar Singh (JC-185299F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Himangshu Kumar Nath (JC-185300L), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Munshi Singh (JC-185301N), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Soram Meena (JC-187644H), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Bhairon Singh Shekhawat (JC-185302W), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Shyam Lal Rawat (JC-185303Y), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Veerendra Singh (JC-185304F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Pradeep Kumar Nag (JC-187645L), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Abdul Gaffar (JC-185306M), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Nani Mohan Chakraborty (JC-185307P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Shiva Ram Yadava (JC-185308X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Deonis Soreng (JC-185309A), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Parshotam Singh (JC-185310P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Kaleckal Thomas Abraham (JC-185311X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Shiv Kumar Chavan (JC-185312A), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Bhim Singh Kadian (JC-185313H), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Bijoy Kumar Biswas (JC-158049W), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Santosh Kumar Singh Rathore (JC-173402P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Md Ghouse Mohiddin Khan (JC-185316W), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Sushil Pratap Singh Jadon (JC-185317Y), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Addul Khalil (JC-185318F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ram Vir Singh (JC-185319K), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Gian Chand (JC-185321F), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Suresh Chandra Shrivastava (JC-185322K), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ram Ashrey Pandey (JC-185323M), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Anil Kumar (JC-185324P), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Gurdev Singh Labra (JC-185325X), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Mridul Kumar Talukdar (JC-185326A), 01st Oct, 1993.
- P A Sub Ajit Kumar Kashyapi (JC-185328L), 01st Oct, 1993.

- PA Sub Shri Niwas Sharma (JC-185329N), 01st Oct 1993.
- PA Sub Daud Dung Dung (JC-185330H), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Dalip Kumar (JC-185331L), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Brajen Chakrabarty (JC-185332N), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Krishan Singh (JC-187648Y), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Darshan Kumar (JC-185333W), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Sakal Prasad (JC-185334Y), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Aditya Kumar Nayak (JC-185335F), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Baljit Singh (JC-185337M), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Saroop Singh (JC-187649F), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Siba Charan Rout (JC-185339X), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Jeevraj Jangid (JC-185340M), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Bishnu Deo Singh (JC-183214F), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Saibal Bhattacharyya (JC-183216M), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Dilip Kumar Nag (JC-185305K), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Puran Singh Saini (JC-185315N), 1st Oct, 1993.
- PA Sub Om Bahadur Runa (JC-193071A), 01st Oct, 1993.
- PA Sub P Samuthira Pandian (JC-187686P), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Sukhbir Singh (JC-187692H), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Janak Mishra (JC-193074N), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Vijayan Nair K (JC-193095K), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Malkiat Singh Hothi (JC-193096M), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Ram Pal Singh (JC-193044W), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Jawahar Jha (JC-193045Y), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Waryam Singh Kapoor (JC-193046F), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Sankatha Ram Yadav (JC-193047K), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Rajendra Prasad (JC-193048M), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Govinda Pillai K (JC-195177L), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Raj Ballabh Sharma (JC-193049P), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Shivappa Peerappa Harugeri (JC-193050K), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Bashiruzzaman Khan (JC-193051M), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Ajit Singh (JC-193329H), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Ram Gopal (JC-193052P), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Sivarami Reddy Mettu (JC-193053X), 01st Nov, 1993.
- PA Sub Karpurapu Tirumala Rao (JC-193054A), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Krishan Lal (JC-193055H), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Dharub Singh Salathia (JC-193056L), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Chandra Pal Singh (JC-193057N), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Hari Chand Shukla (JC-193330X), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Sohan Lal Khanna (JC-193059Y), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Jibananda Mukherjee (Mukhopadhyay) (JC-193060N), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Surinder Parkash (JC-193063F), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Chhatlar Pal Sharma (JC-193064K), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Jaivir Singh (JC-193331A), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Brij Mohan Singh Senger (JC-193066P), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Brijendra Pal Singh (JC-193067X), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Ram Prakash (JC-193069H), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Udayanath Mishra (JC-193070X), 01st Dec, 1993.
- PA Sub Raghu Bansh Narayan Singh (JC-185341P), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Data Ram (JC-187650W), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Ram Keshwar Dubey (JC-187651Y), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Sahadevan KC (JC-187652F), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Surendra Prasad Singh (JC-193043N), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Chandreshwar Tiwary (JC-187653K), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Suresh Chandra Dwivedi (JC-187654M), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Veerendra Pratap Singh Chauhan (JC-187655P), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Charan Singh Verma (JC-187656X), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Jaipal Singh (JC-187658H), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Anand Bihari Tiwari (JC-187662L), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Madan Singh (JC-187660A), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Anand Bihari Tiwari (JC-187662L), 01st Oct, 1993.
- PA Sub Banarsi Dass (JC-187663N), 01st Oct, 1993.

PA Sub Hari Phral (JC-187665Y), 01st Oct, 1993.

PA Sub Hari Shankar Rai (JC-173405X), 01st Oct, 1993.

PA Sub Gadde Mrudusala Rao (JC-185314L), 01st Oct, 1993.

PA Sub Girwar Singh Sikarwar (JC-187666F), 01st Oct, 1993.

PA Sub Deo Krishna Jha (JC-187667K), 01st Oct, 1993.

PA Sub Gulbadan Singh (JC-187674A), 01st Oct, 1993.

PA Sub Mahadev Singh (JC-187675H), 01st Oct, 1993.

PA Sub Suraj Mal Boken (JC-187676L), 01st Oct, 1993.

PA Sub Tejpal Nagar (JC-187677N), 01st Oct, 1993.

PA Sub Narain Singh (JC-187678W), 01st Oct, 1993.

PA Sub Bani Singh Jakhar (JC-187680N), 01st Oct, 1993.

PA Sub Raj Pal (JC-187681W), 01st Oct, 1993.

PA Sub Kulandaiswamy Arumugam (JC-187683F), 01st Oct, 1993.

PA Sub Devta Prasad Pandey (JC-187685M), 01st Oct, 1993.

PA Sub Brij Lal (JC-187687X), 01st Oct, 1993.

PA Sub Mulayam Singh (JC-187688A), 01st Oct, 1993.

PA Sub Lal Bahadur Singh (JC-187689H), 01st Oct, 1993.

PA Sub Charanjit Singh (JC-187691A), 01st Oct, 1993.

PA Sub Kumar Rachayya Gangayya Shivapujimath (JC-187693L), 01st Oct, 1993.

PA Sub Shankar Narahari Gavandar (JC-193073L), 01st Oct, 1993.

PA Sub Ramesh Kumar Sharma (JC-193076 Y), 01st Oct, 1993.

PA Sub Jagmal Singh Yadav (JC-193077F), 01st Oct, 1993.

PA Sub Surjan Singh (JC-193079M), 01st Oct, 1993.

PA Sub Gopal Charan Swain (JC-193080F), 01st Oct, 1993.

PA Sub Satya Prakash (JC-193081K), 01st Oct, 1993.

PA Sub Baliada Kushalappa Appanna (JC-193082M), 01st Oct, 1993.

PA Sub Nand Lal Jakhwal (JC-193083P), 01st Oct, 1993.

PA Sub Hardip Singh Sandhu (JC-193084X), 01st Oct, 1993.

PA Sub Ishwar Chand (JC-193085A), 01st Oct, 1993.

PA Sub Bhanwar Singh Rathore (JC-193086H), 01st Oct, 1993.

PA Sub Surinder Kumar (JC-193087L), 01st Oct, 1993.

PA Sub Mahadevappa Basavanneppa Banakar (JC-193089W), 01st Oct, 1993.

PA Sub Gurbux Singh (JC-193090L), 01st Oct, 1993.

PA Sub Sunil Ranjan Das (JC-193093Y), 01st Oct, 1993.

PA Sub Bahadur Singh Chauhan (JC-193094F), 01st Oct, 1993.

BALBIR SINGH,
Under Secy.

No. 206, dated 31st January 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

INFANTRY

119 INFANTRY BATTALION (TA)

To be Sub

Nb Sub Mani Chand Singha (TJ-2733), 01 Feb 94.

120 INFANTRY BATTALION (TA)

To be Sub

Nb Sub Jairam Ram (TJ-3067), 01 Jun 93.

Nb Sub Durga Prasad Yadav (TJ-3068), 01 Jun 93.

Nb Sub Hari Krushna Nayak (TJ-3372), 01 Jun 93.

Nb Sub Makar Dhawaja Behera (TJ-3371), 01 Jun 93.

101 INF BN (TA)

To be Nb Sub

Hav Sayyad Mubarak Babulal (10118647) (now TJ-3854), 01 Nov 93.

Hav Walikar Chandrshekhar (10118916) (now TJ-3855), 01 Nov 93.

111 INFANTRY BN (TA)

To be Nb Sub

Hav Harpal Singh (No. 10181416 now TJ-3856), 01 Dec 1993.

Hav Prahlad Das Patel (No. 10181448 now TJ-3857), 01 Dec 1993.

109 INF BN (TA)

To be Nb Sub

10149665 Hav Ganpatrao Ghodake (now TJ-3858), 01 Jan 94.

10149733 Hav Manohar Shivappa Daddikar (now TJ-3859), 01 Jan 94.

10146443 Hav More Laxman Appa (now TJ-3860), 01 Jan 94.

K KUMAR, Lt Col
GSO-I/TA-3

(NAVY BRANCH)

No. 207, dated 31st January 1994.—The undermentioned Office Superintendent Gd-I (OS-I) have been promoted to the grade of Civilian Gazetted Officer (CGO) on regular basis wef the dates shown against their names :—

Sh A Venkateshwara Rao—11 Oct 93 (F/N).

Sh AE Mehar—09 Nov 93 (F/N).

Smt VS Paradkar—05 Nov 93 (F/N).

2. They will remain on probation for a period of two years.

The undermentioned Senior Foremen of Store (SFSs) have been promoted to the grade of Assistant Naval Store Officer

(ANSO) on regular basis wef the dates shown against their names :—

Sh PC Muthykutty—09 Oct 93 (F/N).

Sh Gulshan Khan—24 Sep 93 (F/N).

Sh PL Solanki—23 Sep 93 (F/N).

2. They will remain on probation for a period of two years.

UN KHANNA, Cdr
Dy Dir of Civ Pers

NAVAL HEADQUARTERS

No. 208, dated 27th January 1994.—Shri P. J. Ramtaka, Senior Translator is promoted as Offg Translation Officer (Group 'B'—Gazetted) with effect from 30 August, 1993.

PN MAULIK,
Up Mukhya Prashasan Adhikari

COAST GUARD

No. 209, dated 15th February 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

GENERAL DUTY

DIG YP Malik (0081-J)—Promoted to the rank of acting Inspector General (GD) w.e.f. 01 Dec 93.

Asst Comdt NV Rama Rao (0175-V)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (GD) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt Udhal Singh (0168-E)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (GD) w.e.f. 7 Dec 93.

TECHNICAL DUTY

Asst Comdt RK Singhal (4031-M)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt S Walia (5016-X)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt HK Sharma (5017-C)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt PR Ramdas (4032-M)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt S Sheralpal (5018-D)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt M Sahid (4033-P)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt N Chakraborty (4035-S)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt G Sethy (4034-Q)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

Asst Comdt SD Patil (5019-E)—Promoted to the rank of Deputy Commandant (Tech) w.e.f. 7 Dec 93.

BABU CHERIAN,
Desk Officer

D G Q A

No. 210, dated 2nd February 1994.—On attaining the age of superannuation, the following officers/PS retired from the Government service on 31-1-94 (A/N) and transferred to pension establishment w.e.f. 1-2-94 :—

S/Shri

Mohinder Singh, ACSO.

Harish Chandra Sah, ACSO.

Kasturi Lal, PS.

PN MAULIK,
Dy Chief Administrative Officer

ARMY BRANCH

No. 211, dated 10th February 1994.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service wef dates mentioned against them, earlier than their normal age of retirement, at their own request, for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

189 IC-14264 Col GK Srinivasan Inf, 31-07-90 (A/N).

172 IC-14399 Lt Col VM Pradhan Inf, 31-05-93 (A/N).

IC-16163 Lt Col NP Nanda Inf, 31-03-91 (A/N). 16

403 IC-16734 Lt Col (TS) SS Sial EME, 15-09-93 (A/N).

IC-16965 Col Yogesh Gupta AOC, 04-01-93 (A/N) 156.

IC-17487 Lt Col (TS) VK Sagar AC, 31-08-93 (A/N) 189.

IC-17879 Lt Col Kashinath Atre EME, 04-01-93 (A/N). 69.

208 IC-18053 Lt Col HS Tripathi Inf, 30-06-90 (A/N).

344 IC-18189 Lt Col (TS) BM Thapa Engrs, 31-03-92 (A/N).

403 IC-19341 Lt Col (TS) DK Roy EME, 16-01-93 (A/N).

405 IC-19359 Lt Col (TS) Jagmohan Singh Engrs, 20-07-92 (A/N).

IC-19514 Lt Col (TS) Harjit Singh AC, 18-05-92 (A/N) 278.

235 IC-21465 Lt Col MPS Ahluwalia Arty, 18-05-92 (A/N).

285 IC-22135 Col AS Gill SM Inf, 03-12-90 (A/N).

IC-23556 Lt Col Narendran Singh Engrs, 27-05-91 (A/N). 216.

IC-23700 Col HS Mann Arty, 30-06-93 (A/N) 422.

IC-23716 Lt Col (TS) Sumant Bhatia Engrs, 31-03-92 (A/N) 423.

IC-23969 Lt Col (TS) BS Raikhy Arty, 25-07-93 (A/N) 435.

IC-24135 Lt Col AK Sanghi Engrs, 11-07-91 (A/N) 266.

IC-24303 Lt Col (TS) GL Kacker Arty, 27-05-92 (A/N) 557.

IC-24463 Lt Col (TS) S Raman EME, 25-03-93 (A/N) 286.

IC-24486 Maj Brajlal Debnath Engrs, 24-10-92 (A/N) 521.

IC-24500 Lt Col Satish Chandra EME, 12-08-93 (A/N) 288.

IC-24553 Lt Col Arun Kulkarni Sigs, 20-11-92 (A/N) 291.

IC-24791 Maj GS Oberoi Engrs, 15-08-91 (A/N) 537.

IC-25285 Lt Col (TS) Radhe Mohan Singh EME, 10-09-92 (A/N) 596.

IC-25310 Lt Col (TS) GS Grewal Engrs, 12-12-92 (A/N) 597.

IC-25789 Lt Col SR Chowdhury Engrs, 04-11-92 (A/N) 420.

IC-25968 Lt Col KVS Yadav Arty, 17-08-93 (A/N) 654.

IC-25971 Lt Col (TS) KJS Vohra EME, 01-11-93 (F/N) 654.

- IC-26002 Kuldeep Singh (Lt Col) AC, 28-12-92 (F/N) 223.
- IC-26294 Maj RK Grover Engrs, 26-05-93 (A/N) 293.
- IC-26522 Lt Col SR Kapahi EME, 18-01-93 (A/N) 234.
- IC-26707 Lt Col (TS) Sudhir Kumar Engrs, 26-05-93 (A/N) 865.
- IC-26842 Lt Col KL Monga Engrs, 17-02-93 (A/N) 417.
- IC-27848 Maj KS Bhatnagar EME, 30-09-93 (A/N) 729.
- IC-27907 Lt Col Surinder Bir EME, 07-10-92 (A/N) 600.
- IC-28166 Lt Col (TS) Joy George Arty, 27-07-93 (F/N) 350.
- IC-30620 Lt Col CJ Anugraham EME, 03-11-93 (A/N) 678.
- IC-31921 Maj OM Bhandu EME, 17-02-93 (A/N) 805.
- IC-32002 Lt Col NK Sarup AC, 30-06-92 (A/N) 603.
- IC-32308 Lt Col (TS) JS Sawhney Arty 30-09-93 (A/N) 664.
- IC-32484 Lt Col (TS) DK Sharma EME, 26-10-93 (F/N) 668.
- IC-32619 Lt Col (TS) Chandra Prakash Sigs, 17-08-93 (A/N) 674.
- IC-32662 Lt Col (TS) HV Bhutani Engrs, 30-11-92 (A/N) 676.
- IC-32717 Maj HS Sidhu AC, 04-03-92 (A/N) 684.
- IC-35211 Maj Anil Sabharwal AC, 14-10-93 (A/N) 1101.
- 318 IC-15107 Lt Col Het Singh Engrs, 31-05-93 (A/N).
- IC-17109 Maj AK Puri Sigs, 17-08-93 (A/N) 162.
- IC-19757 Lt Col (TS) Ashok Kumar Engrs, 17-08-93 (A/N) 167.
- IC-19758 Lt Col PRS Nair Engrs, 31-07-93 (A/N) 167.
- IC-23683 Lt Col (Selec) HS Chima Engrs, 05-09-93 (F/N) 421.
- IC-24100 Lt Col (Selec) Tuka Ram Yadav Sigs, 20-07-93 (A/N) 254.
- IC-24762 Lt Col (TS) RA Malik Engrs, 30-06-93 (A/N) 535.
- IC-25011 Lt Col (Selec) PC Thomas Engrs, 30-05-93 (A/N) 338.
- IC-25228 Lt Col GS Gill Engrs, 16-08-93 (A/N) 593.
- IC-25769 Maj JM Desai Engrs, 11-07-93 (A/N) 419.
- IC-26241 Lt Col (TS) MA Khan Engrs, 26-05-93 (A/N) 322.
- IC-26311 Lt Col MK Ghai Engrs, 31-07-93 (A/N) 293.
- IC-27190 Lt Col (TS) JS Dabas Engrs, 17-08-93 (A/N) 478.
- IC-27266 Maj RB Patil Engrs, 02-07-93 (A/N) 694.
- IC-27898 Lt Col Shailesh Kumar Sigs, 20-06-93 (A/N) 600.
- IC-27912 Lt Col (TS) AK Sarwal Sigs, 15-07-93 (A/N) 601.
- IC-28012 Lt Col (TS) SJ Malik Sigs, 20-03-93 (A/N) 365.
- IC-29748 Lt Col (TS) BM Muthappa Engrs, 25-05-93 (A/N) 570.
- IC-30310 Lt Col (TS) NC Watwe Sigs, 15-06-93 (A/N) 852.
- IC-30676 Maj CN Anand Engrs, 25-05-93 (A/N) 681.
- IC-32708 Lt Col (TS) VD Tyagi Engrs, 26-05-93 (A/N) 871.
- IC-33115 Maj SR Narayanan Sigs, 28-08-92 (A/N) 748.
- IC-33194 Maj PM Mani Arty, 18-07-93 (A/N) 752.
- IC-33322 Maj KS Sidhu Armd, 16-08-93 (F/N) 780.
- IC-35676 Maj DS Manohar Sigs, 15-08-92 (A/N) 1126.
- IC-36111 Maj S Sengupta EME, 15-03-93 (A/N) 935.
- IC-38468 Maj DD Chundawat Armd, 17-02-93 (A/N) 1179.

VK ANAND, Col
Col MS (R&R)

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 212, dated 11th February 1994.—The undermentioned officer retired from service on superannuation with effect the date noted against his name :—

Shri Jai Singh, Workshop Officer Group 'B'—01 Jan 1994 (F/N).

The undermentioned Officer retired from service on attaining the age of superannuation with effect the date noted against his name :—

Shri Y B K Sastary, EME Officer (Civilian). 31 Dec 1993 (After noon)

V. K. PRABHAKARAN,
Lt. Col.
JD EME (Civ.)

MILITARY ENGINEER SERVICES

No. 213, dated 8th February 1994.—MES-450471 Shri Ramesh Chander Dawar, Superintending Engineer (Selection Grade) has voluntarily retired from service with effect 31 Jan 1994 (A/N).

KIRAN KOCHAR,
Under Secy.